

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 28—नवम्बर 3, 2017 (कार्तिक 6, 1939)

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28—NOVEMBER 3, 2017 (KARTIKA 6, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2017
(सेना शाखा)

सं 223, दिनांक 8 सितम्बर 2017—राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 05 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान अमित राजन एम एस-17788-वाई

आयोग की तिथि 04.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 04.02.2012 से दी जाएगी। (इसमें पथोलोजी में परास्नातक के लिए 36 महीने एवं अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने) 42 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 04.02.2012 से दी गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान सुमीश बब्बर एम एस-17800-पी

कमीशन की तिथि 04.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 04.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 04.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान भास्कर ज्योति देउरी एम एस 18073-पी

आयोग की तिथि 18.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 18.02.2013 से दी जाएगी। इसमें 30 महीने (24 महीने शिशुरोग चिकित्साशास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं 06 महीने अस्पताल नियुक्ति) के लिए पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 18.02.2013 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान मोहित वाधवा एम एस-18020-डब्ल्यू

कमीशन की तिथि 22.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 22.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 22.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान नवरत्न मिश्रा एम एस-17836-एन

कमीशन की तिथि 10.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 10.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 10.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान दिनेश भोले एम एस-18084-एफ

कमीशन की तिथि 11.03.2016

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 11.09.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 11.09.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान मोहुल चंद्र प्रसाद एम एस-18079-डब्ल्यू

कमीशन की तिथि 09.03.2016

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 09.09.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 09.09.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अलिशा शर्मा एम एस-18009-एक्स

कमीशन की तिथि 18.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 18.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 18.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान सौरभ मिश्रा एम एस-17450-एन

कमीशन की तिथि 01.11.2014

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 01.05.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अमनदीप सिंह गिल एम एस-18030-ए

कमीशन की तिथि 02.07.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 02.01.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 02.01.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान गौरी वी आर एम एस-18130-एल

कमीशन की तिथि 23.03.2016

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.09.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 23.09.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान सुनेहा एम एस-18097-वाई

कमीशन की तिथि 16.03.2016

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 16.09.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 16.09.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान सुनील गाबा एम एस-18209-एन

कमीशन की तिथि 02.07.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 02.01.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 02.01.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान साक्षी शर्मा एम एस-18212-एन

कमीशन की तिथि 17.07.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 17.01.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 17.01.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अमित कुमार साहू एम एस-18089-ए

कमीशन की तिथि 12.03.2016

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 12.09.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 12.09.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान तरनजीत सिंह एम एस-17506-पी

कमीशन की तिथि 31.12.2014

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 30.06.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 30.06.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान रजनी एम एस-17818-एल

कमीशन की तिथि 05.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 05.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 05.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान मधुस्मिता मोहंती एम एस-17754-एल

कमीशन की तिथि 23.06.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.12.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 23.12.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान प्रशान्त घटिगेप्पा बेल्लद एम एस-17826-के

कमीशन की तिथि 07.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 07.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 07.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान नीतू बाला एम एस 18205-एक्स

आयोग की तिथि 14.05.2016

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 14.11.2012 से दी जाएगी। (इसमें सामाजिक एवं निवारक दवा में परास्नातक के लिए 36 महीने एवं अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने) 42 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 14.11.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान पूर्वा शर्मा एम एस-18095-एन

कमीशन की तिथि 15.03.2016

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 15.09.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 15.09.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान गुलज़ार मशानी एम एस 18204-पी

कमीशन की तिथि 21.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 21.08.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (ओपथोलमोलोजी) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 21.08.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अनुश्री मजुमदार एम एस 18324-एन

आयोग की तिथि 03.03.2016

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 03.09.2012 से दी जाएगी। (इसमें पथोलोजी में परास्नातक के लिए 36 महीने एवं अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने) 42 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 03.09.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान सुमित शर्मा एम एस-17184-ए

कमीशन की तिथि 06.08.2013

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 06.02.2013 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 06.02.2013 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान दिनेश डेविस एम एस-17447-एन

कमीशन की तिथि 01.11.2014

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 01.05.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान भावना वर्मा एम एस-17522-एम

कमीशन की तिथि 08.01.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 08.07.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 08.07.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान शेरिफ पॉल एम एस-17442-पी

कमीशन की तिथि 01.11.2014

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 01.05.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अभिषेक भारती एम एस 17891-के

कमीशन की तिथि 17.07.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 17.07.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (मनोविकारशास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 17.07.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान बिप्लबी बिस्वा केसरी मोहंती एम एस-18004-वाई

कमीशन की तिथि 14.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 14.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 14.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान नेहा सहाय एम एस-17909-पी

कमीशन की तिथि 02.07.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 02.07.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम एस (प्रसूति एवं स्त्री रोग) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 02.07.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान प्रियंका विश्वकर्मा गर्ग एम एस 17902-एल

कमीशन की तिथि 18.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 18.08.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (शिशुरोग चिकित्साशास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 18.08.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अंगद सिंह सोढ़ी एम एस-17630-डब्ल्यू

कमीशन की तिथि 01.01.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.07.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 01.07.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान योगेश कुमार शर्मा एम एस-17945-ए

कमीशन की तिथि 23.06.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.12.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 23.12.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान प्रियंका चौधरी एम एस-18057-एक्स

कमीशन की तिथि 20.07.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 20.01.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 20.01.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान ललित मीसला एम एस 17704-ए

कमीशन की तिथि 26.06.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 26.06.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (कम्युनिटी मेडिसिन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 26.06.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान साहिल गोरका एम एस-17761-एफ

कमीशन की तिथि 01.07.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.01.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 01.01.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान नीतू बाला	एम एस-18205 एक्स	ए एम सी	14.05.2016
कप्तान शेरिफ पॉल	एम एस-17442 पी	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान सौरभ मिश्रा	एम एस-17450 एन	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान तरनजीत सिंह	एम एस-17506 पी	ए एम सी	31.12.2014
कप्तान सन्दीपन देब सरकार	एम एस-17756 डब्ल्यू	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान नन्दीश्वर राठौर	एम एस-18068 के	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान रसूलता सवाई	एम एस-18208 एल	ए एम सी	25.06.2015

कप्तान सुनिल गाबा	एम एस-18209 एन	ए एम सी	02.07.2015
कप्तान भुबनेस्वर बाघ	एम एस-18210 एच	ए एम सी	11.07.2015
कप्तान संजय सिंह तोमर	एम एस-18211 एल	ए एम सी	11.07.2015
कप्तान साक्षी शर्मा	एम एस-18212 एन	ए एम सी	17.07.2015
कप्तान जितेन्द्र प्रताप सिंह	एम एस-17418 वाई	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान साहिल गोरका	एम एस-17761 एफ	ए एम सी	01.07.2015
कप्तान कुमारन जी	एम एस-17763 एम	ए एम सी	04.07.2015
कप्तान प्रिति राय	एम एस-17872 वाई	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान योगेश कुमार शर्मा	एम एस-17945 ए	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान अलिशा शर्मा	एम एस-18009 एक्स	ए एम सी	18.08.2015
कप्तान मोहुल चन्द्र प्रसाद	एम एस-18079 डब्ल्यू	ए एम सी	09.03.2016
कप्तान सुनेहा	एम एस-18097 वाई	ए एम सी	16.03.2016
कप्तान गौरी वी आर	एम एस-18130 एल	ए एम सी	23.03.2016
कप्तान गुलज़ार मशानी	एम एस-18204 पी	ए एम सी	21.08.2015
कप्तान अनुश्री मजुमदार	एम एस-18324 एन	ए एम सी	03.03.2016
कप्तान प्रवीण एम	एम एस-17552 के	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान सुनन्दन नन्दी पुरकायस्थ	एम एस-17643 एन	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान शंकर राज कुमार	एम एस-17791 वाई	ए एम सी	11.08.2015
कप्तान श्रीविजय मोरला	एम एस-17817 एच	ए एम सी	05.08.2015
कप्तान अनु शर्मा	एम एस-18041 एम	ए एम सी	05.08.2015
कप्तान प्रवीण पोलेपल्ली	एम एस-18087 पी	ए एम सी	11.03.2016
कप्तान सी एच श्रीधर चारी	एम एस-18099 के	ए एम सी	17.03.2016
कप्तान आर म्यथिलिकृष्णन	एम एस-18216 के	ए एम सी	18.08.2015
कप्तान गंदला स्वाति	एम एस-17863 एक्स	ए एम सी	11.08.2015
कप्तान कासुल नागार्जुन	एम एस-17882 एच	ए एम सी	30.06.2015
कप्तान अभिषेक भारती	एम एस-17891 के	ए एम सी	17.07.2015
कप्तान प्रियंका विश्वकर्मा गर्ग	एम एस-17902 एल	ए एम सी	18.08.2015
कप्तान अग्निदिपा दास	एम एस-17920 एन	ए एम सी	07.08.2015
कप्तान रूपल	एम एस-17986 के	ए एम सी	04.08.2015
कप्तान बिप्लबी बिस्वा केशरी मोहंती	एम एस-18004 वाई	ए एम सी	14.08.2015
कप्तान अमनदीप सिंह गिल	एम एस-18030 ए	ए एम सी	02.07.2015
कप्तान रोबिनसन वी थोमस	एम एस-18042 पी	ए एम सी	06.08.2015
कप्तान रवितेज गोलिव	एम एस-18050 एन	ए एम सी	13.10.2015
कप्तान अंगद सिंह सोढ़ी	एम एस-17630 डब्ल्यू	ए एम सी	01.01.2015
कप्तान शिवलिंग	एम एस-17765 एक्स	ए एम सी	15.07.2015
कप्तान सौरभ नामदेव	एम एस-17839 एफ	ए एम सी	11.08.2015
कप्तान मनीष कुमार	एम एस-17846 एक्स	ए एम सी	14.08.2015
कप्तान दत्ता साई सरकार गोलि	एम एस-17853 एन	ए एम सी	18.08.2015
कप्तान कोसुरु राजशेखर	एम एस-17866 एल	ए एम सी	18.08.2015

कप्तान आकांक्षा श्रीवास्तव	एम एस-17885 डब्ल्यू	ए एम सी	09.07.2015
कप्तान कौशलेन्द्र सिंह	एम एस-17892 एम	ए एम सी	17.07.2015
कप्तान अक्शय वधिनेनि	एम एस-17894 एक्स	ए एम सी	18.07.2015
कप्तान सोडविक चक्रबोर्ती	एम एस-17901 एच	ए एम सी	04.08.2015
कप्तान नेहा सहाय	एम एस-17909 पी	ए एम सी	02.07.2015
कप्तान मीनाक्षी	एम एस-17911 एम	ए एम सी	10.07.2015
कप्तान कार्तिक नुन्ना	एम एस-17912 पी	ए एम सी	14.07.2015
कप्तान सिद्धार्थ टी	एम एस-17980 एच	ए एम सी	15.07.2015
कप्तान विकल्प जैन	एम एस-17983 डब्ल्यू	ए एम सी	16.07.2015
कप्तान अनु जैन	एम एस-18022 एफ	ए एम सी	11.09.2015
कप्तान अनुप्रीत कौर	एम एस-18052 वाई	ए एम सी	02.07.2015
कप्तान गौतम मुखर्जी	एम एस-18053 एफ	ए एम सी	02.07.2015
कप्तान जया मनचन्दा	एम एस-18065 डब्ल्यू	ए एम सी	12.09.2015
कप्तान नेहा व्यास	एम एस-17509 एच	ए एम सी	06.01.2015
कप्तान आदर्श गुप्ता	एम एस-17679 एम	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान एम डी खाजा मोहिउद्दीन	एम एस-17711 डब्ल्यू	ए एम सी	27.06.2015
कप्तान वेन्कटेश कुमार लगुदु	एम एस-17721 ए	ए एम सी	02.07.2015
कप्तान सिगिन जोर्ज	एम एस-17722 एच	ए एम सी	02.07.2015
कप्तान ऐश्वर्या डी	एम एस-17753 एच	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान हरिकृष्णा बूतला	एम एस-17843 के	ए एम सी	13.08.2015
कप्तान अभिमन्यु शर्मा	एम एस-17844 एम	ए एम सी	13.08.2015
कप्तान करि रमेश कुमार	एम एस-17851 एच	ए एम सी	18.08.2015
कप्तान श्रीनू नंदिगामा	एम एस-17855 वाई	ए एम सी	18.08.2015
कप्तान सतीश पोतुपुरेड्डी	एम एस-18111 ए	ए एम सी	20.03.2016
कप्तान वयाल्पदु ए कुमार रेड्डी	एम एस-18113 एल	ए एम सी	21.03.2016
कप्तान मुदित उप्रेती	एम एस-18124 एक्स	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान प्रभु एस अंगदी	एम एस-18125 ए	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान पित्तादा द्वारकानाथ	एम एस-18135 के	ए एम सी	23.03.2016
कप्तान द्रोनादुला बालाजी	एम एस-18136 एम	ए एम सी	24.03.2016
कप्तान सिमरनजीत सिंह	एम एस-18137 पी	ए एम सी	24.03.2016
कप्तान श्रुति एलिज़ाबेथ बाबू	एम एस-18233 के	ए एम सी	15.03.2016
कप्तान खिल्लारे अमित भास्कर	एम एस-18241 एच	ए एम सी	16.03.2016
कप्तान पल्लवी गड्गे	एम एस-18261 डब्ल्यू	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान विक्रम कुलकर्णी	एम एस-18262 वाई	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान रुचि मिश्रा	एम एस-18320 एक्स	ए एम सी	28.06.2016
कप्तान एरम रियाज़	एम एस-18088 एक्स	ए एम सी	11.03.2016
कप्तान एन मुरली कृष्णा	एम एस-18129 डब्ल्यू	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान अहमद अली मोहम्मद	एम एस-18138 एक्स	ए एम सी	24.03.2016
कप्तान संदीप शर्मा	एम एस-18140 पी	ए एम सी	24.03.2016

कप्तान आकांक्षा तेवतिया	एम एस-18217 एम	ए एम सी	02.06.2016
कप्तान पटेल चेतनकुमार रमेशभाई	एम एस-18218 पी	ए एम सी	30.06.2016
कप्तान हिमांशु शर्मा	एम एस-18273 एल	ए एम सी	29.03.2016
कप्तान अनूप सिंह	एम एस-18290 एल	ए एम सी	10.05.2016
कप्तान चंदन कुमार	एम एस-18291 एन	ए एम सी	10.05.2016
कप्तान जीवन मोहन मेस्ता	एम एस-18294 एफ	ए एम सी	12.05.2016
कप्तान सग्निक दत्ता मजुमदार	एम एस-18300 के	ए एम सी	13.05.2016
कप्तान सिद्धालिंगेश हुगर	एम एस-18612 ए	ए एम सी	15.03.2016
कप्तान साहिल सिंगला	एम एस-18096 डब्ल्यू	ए एम सी	16.03.2016
कप्तान शिवराम पेडागमल्ला	एम एस-18103 एफ	ए एम सी	18.03.2016
कप्तान शेकल्ला शिवस्पंदन	एम एस-18104 के	ए एम सी	18.03.2016
कप्तान प्रदीप	एम एस-18126 एच	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान मंधा भरत कुमार	एम एस-18127 एल	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान सुनीलकुमार एच	एम एस-18128 एन	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान अरुणकुमार बी	एम एस-18263 एफ	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान रोहित	एम एस-18283 पी	ए एम सी	05.05.2016
कप्तान रुद्र प्रसाद भौमिक	एम एस-18286 एच	ए एम सी	07.05.2016
कप्तान हरिकृष्णन के ए	एम एस-18293 वाई	ए एम सी	12.05.2016
कप्तान अर्पित आनन्द	एम एस-18299 ए	ए एम सी	13.05.2016
कप्तान धीरज रेड्डी डी	एम एस-18618 एफ	ए एम सी	21.03.2016
कप्तान सुशांत कुमार सिंह	एम एस-18077 एल	ए एम सी	09.03.2016
कप्तान नायर मनु रिशिकेशन	एम एस-18091 एक्स	ए एम सी	12.03.2016
कप्तान ललिता शर्मा	एम एस-18108 ए	ए एम सी	19.03.2016
कप्तान परवीन	एम एस-18133 वाई	ए एम सी	23.03.2016
कप्तान किरण जी	एम एस-18248 एम	ए एम सी	18.03.2016
कप्तान खोट संग्राम दिलीप	एम एस-18258 डब्ल्यू	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान दर्शन एस चिन्चाखंडी	एम एस-18260 एन	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान विनीत मंडराह	एम एस-18266 पी	ए एम सी	23.03.2016
कप्तान विवेक शर्मा	एम एस-18623 एम	ए एम सी	10.05.2016
कप्तान अंकिता पटेल	एम एस-18083 वाई	ए एम सी	11.03.2016
कप्तान रज़िल अख्तर	एम एस-18090 पी	ए एम सी	12.03.2016
कप्तान रणदीप सिंह	एम एस-18101 डब्ल्यू	ए एम सी	18.03.2016
कप्तान नील अभय शाह	एम एस-18119 एम	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान दिलीप सुथार	एम एस-18120 एफ	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान सूरज सिन्हा	एम एस-18121 के	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान एकता जैन	एम एस-18131 एन	ए एम सी	23.03.2016
कप्तान सायंतन पॉल	एम एस-18132 डब्ल्यू	ए एम सी	23.03.2016
कप्तान श्वेता डडवाल	एम एस-18141 एक्स	ए एम सी	09.04.2016
कप्तान शाहीन खान भाटी	एम एस-18220 एम	ए एम सी	09.03.2016

कप्तान नंदिनी अरोड़ा	एम एस-18244 डब्ल्यू	ए एम सी	17.03.2016
कप्तान विवेक नाथ ओबराय	एम एस-18257 एन	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान रूपम तालुकदार	एम एस-17969 के	ए एम सी	08.07.2015
कप्तान एमलकोटा सुबहान बाबु	एम एस-18215 एफ	ए एम सी	11.08.2015
कप्तान बंदना	एम एस-18265 एम्	ए एम सी	23.03.2016
कप्तान श्यामल राय	एम एस-18676 एल	ए एम सी	27.02.2016
कप्तान ऐन्द्रिला मिश्रा	एम एस-18082 डब्ल्यू	ए एम सी	11.03.2016
कप्तान सत्य प्रकाश	एम एस-18678 डब्ल्यू	ए एम सी	10.03.2016
कप्तान जगदीश ए	एम एस-18682 वाई	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान अरुण एल	एम एस-18249 पी	ए एम सी	18.03.2016
कप्तान अजय घनघस	एम एस-18610 पी	ए एम सी	12.03.2016

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट धनविजय पल्लवी विठ्ठल	एम एस-18201 एफ (एएफ-34797आर)	ए एम सी	12.08.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट रजत रान्याल	एम एस-18322 एच (एएफ-35318आर)	ए एम सी	02.07.2016
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट गजिपारा भार्गव मनहारभाई	एम एस-18238 एच (एएफ-35112टी)	ए एम सी	16.03.2016
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट शिरीन शर्मा	एम एस-18256 एल (एएफ-35114जी)	ए एम सी	22.03.2016
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट आशीष कुमार धीमन	एम एस-18287 एल (एएफ-35125आर)	ए एम सी	10.05.2016
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अंकित	एम एस-18288 एन (एएफ-35126टी)	ए एम सी	10.05.2016
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट उम्मि चन्द्रशेखर	एम एस-18055 एम (एएफ-34748एल)	ए एम सी	08.07.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अरुण मोहन एम्वी	एम एस-18197 के (एएफ-34808एस)	ए एम सी	19.08.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अविनाश बी के	एम एस-18213 डब्ल्यू (एएफ-34779एल)	ए एम सी	01.08.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट बी एन वासुदेव	एम एस-18214 वाई (एएफ-34780एफ)	ए एम सी	01.08.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट विकास अडिकेनवर	एम एस-18192 एल (एएफ-34767टी)	ए एम सी	30.06.2015

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट नवजोत सिंह सिधु एम एस-17976-ए(एएफ-34773 के)

कमीशन की तिथि 14.07.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 14.01.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 14.01.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अपरू शर्मा एम एस 17928-ए (ए एफ-34811 एस)

कमीशन की तिथि 01.10.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.10.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (पथोलोजी) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 01.10.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट वैभव सदिवाल एम एस-17973-एम(ए एफ-34774एन)

कमीशन की तिथि 10.07.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 10.01.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 10.01.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिनोय चंद्रन आर एम एस-17927-एक्स (ए एफ-34795 एच)

कमीशन की तिथि 12.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 12.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 12.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाइट लेफ्टिनेंट निधि सिंह एम एस 17873-एफ (34754-बी)

कमीशन की तिथि 23.06.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.06.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (शरीरक्रियाशास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 23.06.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाइट लेफ्टिनेंट राकेश पी एस एम एस-17935-डब्ल्यू(ए एफ-34755 जी)

कमीशन की तिथि 23.06.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.12.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 23.12.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस पी विक्रान्त एम एस-18060-एक्स (ए एफ-34786 जी)

कमीशन की तिथि 06.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 06.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 06.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाइट लेफ्टिनेंट शीवा गोस्वामी एम एस 17149-एक्स (ए एफ 32382-एफ)

आयोग की तिथि 21.09.2012

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 21.09.2010 से दी जाएगी। इसमें 24 महीने स्नातकोत्तर योग्यता रुग्णालय व्यवस्थापन शास्त्र में डिप्लोमा के लिए पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 21.09.2010 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाइट लेफ्टिनेंट यादव चेतन तानाजी एम एस-18207 एच (ए एफ-34790 के)

आयोग की तिथि 08.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 08.02.2012 से दी जाएगी। (इसमें शरीर क्रिया शास्त्र में परास्नातक के लिए 36 महीने एवं अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने) 42 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 08.02.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट बी एन वासुदेव एम एस 18214-वाई (ए एफ-34780 एफ)

कमीशन की तिथि 01.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.08.2012 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (एवियेशन मेडिसिन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल वरिष्ठता 01.08.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट अविनाश बी के एम एस 18213-डब्ल्यू (ए एफ-34779 एल)

कमीशन की तिथि 01.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.08.2012 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (एवियेशन मेडिसिन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल वरिष्ठता 01.08.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाइट लेफ्टिनेंट नाथ अमोल दिलीप एम एस-18206 ए (ए एफ-34789 एस)

आयोग की तिथि 08.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 08.02.2012 से दी जाएगी। (इसमें कम्युनिटी मेडिसिन में परास्नातक के लिए 36 महीने एवं अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने) 42 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 08.02.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट दिव्या एन एम एस 17209 एफ (ए एफ-33145-एच)

आयोग की तिथि 17.09.2013

वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 17.09.2010 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एवियेशन मेडिसिन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल ज्येष्ठता 17.09.2010 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाइट लेफ्टिनेंट पिसल ऋषिकेश कृष्ण एम एस 17907-के (ए एफ-34782 एल)

कमीशन की तिथि 04.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 04.08.2012 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (रुग्णालय व्यवस्थापन-शास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल वरिष्ठता 04.08.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाइट लेफ्टिनेंट पलाश षन्निग्रही एम एस 17906-एफ (34781-एच)

कमीशन की तिथि 04.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 04.08.2012 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (एवियेशन मेडिसिन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल वरिष्ठता 04.08.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट नाथ अमोल दिलीप	एमएस-18206ए (एएफ-34789एस)	एमसी	08.08.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट यादव चेतन तानाजी	एमएस-18207 एच (एएफ-34790के)	एमसी	08.08.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सूरज गोचिपताला	एमएस-17884 एन(एएफ-34752आर)	एमसी	02.07.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट वि नारायणा पतमसेट्टी	एमएस-17946एच (एएफ-34761 एस)	एमसी	24.06.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट रीना पाल	एमएस-17926पी (एएफ-34784टी)	एमसी	04.08.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट एम आनन्द	एमएस-17929एच (एएफ-34812ए)	एमसी	15.10.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट शुभा तिवारी	एमएस-18196एफ (एएफ-34785बी)	एमसी	04.08.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सुयश कुमार मिश्रा	एमएस-17924के (एएफ-34776ए)	एमसी	17.07.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अन्नम अन्वेष	एमएस-17953वाई (एएफ-34764एच)	एमसी	25.06.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के आदित्य ससांक	एमएस-17992एक्स (एएफ-34787के)	एमसी	06.08.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट निधि दूहन	एमएस-17932एच (एएफ-34760एन)	एमसी	23.06.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट शीवा गोस्वामी	एमएस-17149 एक्स (एएफ-32382एफ)	एमसी	21.09.2012
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट कौशिक जैस्वाल	एमएस-17768एल (एएफ-34765एल)	एमसी	23.06.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट विकास गर्ग	एमएस-17898एन (एएफ-34753 टी)	एमसी	03.07.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अपरू शर्मा	एमएस-17928ए (एएफ-34811एस)	एमसी	01.10.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट मोनालिषा गांगुली	एमएस-17956एम (एएफ-34769जी)	एमसी	26.06.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सुशीला संगनबसप्पा काचट्टी	एमएस-17959ए (एएफ-34770टी)	एमसी	30.06.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट ऐश्वर्या एम सुकुमारन	एमएस-17998वाई (एएफ-34793ए)	एमसी	12.08.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट चंदन कुमार यादव	एमएस-18011पी (एएफ-34805जी)	एमसी	18.08.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट राकेश पी एस	एमएस-17935डब्ल्यू (एएफ-34755 जी)	एमसी	23.06.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट आशीष कुमार	एमएस-18010एम (एएफ-34806के)	एमसी	18.08.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट कल्पना सिंह चौहान	एमएस-18014एच (एएफ-34810एन)	एमसी	23.09.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट जी अभिनव रोहित रेड्डी	एमएस-18190ए (एएफ-34771बी)	एमसी	23.06.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट एस पी विक्रान्त	एमएस-18060 एक्स (एएफ-34786जी)	एमसी	06.08.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट रश्मि बजन्नावर	एमएस-17954 एफ (एएफ-34763 एफ)	एमसी	26.06.2015

राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

लेफ्टि अखिल के पी	एम एस-17662 वाई	ए एम सी	24.08.2015
लेफ्टि रविंदर अंजना	एम एस-17664 के	ए एम सी	24.08.2015
लेफ्टिनेन्ट अक्षत के अग्रवाल	एम एस-18170 एम	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट अक्षय कोठारी	एम एस-18179 एफ	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट श्रेया श्रीवास्तव	एम एस-18160 एच	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट विवेक पवाह	एम एस-18172 एक्स	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट उत्तम कुमार मिश्रा	एम एस-18181 वाई	ए एम सी	31.03.2016

लेफ्टिनेन्ट कपिल कुमार शर्मा	एम एस-18184 एम	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट शुभम वाष्णीय	एम एस-18163 डब्ल्यू	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट अनुराग राँय	एम एस-18164 वाई	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट अक्षय राणा	एम एस-18169 एक्स	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट कपिल पटसारिया	एम एस-18171 पी	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट मोहम्मद आसिम शमीम	एम एस-18174 एच	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट स्वीटी रानी	एम एस-18175 एल	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट अभिषेक सैनी	एम एस-18180 डब्ल्यू	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट व्यसक कृष्णन	एम एस-18182 एफ	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट आयुष द्विवेदी	एम एस-18183 के	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट सुमन सौरव	एम एस-18186 एक्स	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट हरिकृष्णन जी	एम एस-18187 ए	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट मुनीर सुबेर	एम एस-18189 एल	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट जोशन थोमस	एम एस-18148 एफ	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट अमन जैसवाल	एम एस-18149 के	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट मयंक	एम एस-18151 एफ	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट अभिषेक अरविंद	एम एस-18153 एम	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट देवी कृष्णा ए वी	एम एस-18154 पी	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट हर्षित कुमार	एम एस-18161 एल	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट पवन कुमार काजल	एम एस-18167 एम	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट सूरज एस	एम एस-18173 ए	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट अमृतेश्वर सिंह बुडूर	एम एस-18176 एन	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट यशॉक कुमार केशारी	एम एस-18177 डब्ल्यू	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट अभिषेक कुमार	एम एस-18178 वाई	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट सरथ कुमार के वी	एम एस-18188 एच	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट सौरभ कुमार मिश्रा	एम एस-18144 एल	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट अनिमेष कुमार	एम एस-18145 एन	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट सूरज गौतम दुचे	एम एस-18146 डब्ल्यू	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट रवि कुमार	एम एस-18147 वाई	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट प्रेरणा त्यागी	एम एस-18150 वाई	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट पूजा श्रीवास्तव	एम एस-18155 एक्स	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट आई एस एस सिरिषा	एम एस-18156 ए	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट सुनीत जॉन जोसफ	एम एस-18157 एच	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट गीतिका रानी जादोन	एम एस-18158 एल	ए एम सी	31.03.2016
लेफ्टिनेन्ट तनुश्री रतुरी	एम एस-18159 एन	ए एम सी	31.03.2016

राष्ट्रपति सहर्ष सेना अनुदेश 40/73 के अधीन निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)/अल्पकालिक सेवा आयोग अधिकारियों को 08 अप्रैल 2016 से नियुक्त करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालिक सेवा आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेंट के पद पर 08 अप्रैल 2016 से प्रभावी (परख पर)

पद	नाम	पुराना सैन्य संख्या	नया व्यक्तिगत संख्या	आयोग की तिथि
नायब सूबेदार	रबिन्द्र नाथ मिश्रा	जेसी-700214 एच	एनटीएस-17644 डब्ल्यू	08 अप्रैल 2016
नायक	कोली योगेश अशोक	15422093 ए	एनटीएस-17645 वाई	08 अप्रैल 2016
नायक	कौथोजम बिमोल सिंह	15427786 एफ	एनटीएस-17646 एफ	08 अप्रैल 2016
नायक	संजीव कुमार	15431630 डब्ल्यू	एनटीएस-17647 के	08 अप्रैल 2016
नायक	इराप्पा यदावान्नावर	15422972 एन	एनटीएस-17648 एम	08 अप्रैल 2016

राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट एस कृष्णा प्रसाद	एम एस-18015 एल (76333-एच)	एएमसी	30.09.2015
------------------------------------	---------------------------	-------	------------

सर्जन लेफ्टिनेन्ट जोगेश आहूजा, (एमएस-18012 एक्स) (76326-टी)(एक्स एमएस-14191-एल), ए.एम.सी,

कमीशन की तिथि 08.09.2015,

वेतन एवम् पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 08.09.2007 से परभावी होगी जिसमें कुल सेवा 08 वर्ष (05 वर्ष उनकी पिछली पूर्ण वेतन कमीशन सेवा के और 03 वर्ष स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (बधिरीकरणशास्त्र) के लिये पूर्व-दिनांक वरिष्ठता शामिल हैं) जो कि उपादान के लिये नहीं गिनी जायगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट वैदेही विरल शाह एम एस 17344-पी (76248-आर)

आयोग की तिथि 19.10.2013

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 19.10.2011 से दी जाएगी। इसमें 24 महीने स्नातकोत्तर योग्यता प्रसूति एवं स्त्री रोग में डिप्लोमा के लिए पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 19.10.2011 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट अतुल विज एम एस-17977-एच (76313-एन)

कमीशन की तिथि 15.07.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 15.01.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 15.01.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट प्रवीण एम जी एम एस 18198-एम (76329-जेड)

आयोग की तिथि 19.08.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 19.02.2012 से दी जाएगी। (इसमें एवियेशन मेडिसिन में परास्नातक के लिए 36 महीने एवं अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने) 42 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 19.02.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट बी विनोद एम एस-17968-एफ (176325-आर)

कमीशन की तिथि 08.07.2015

वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 08.01.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 08.01.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

फ़्लाइंग ऑफिसर के पद पर (परख पर)

फ़्लाइंग ऑफिसर अंकित राव	एमएस-17659वाई (एफ-34802आर)	एमसी	24.08.2015
फ़्लाइंग ऑफिसर अखिल मोहनदास	एमएस-17663एफ (एफ-34803)	एमसी	24.08.2015

बी श्रीधर

ब्रिगेडियर

उपमहानिदेशक (मा.सं.)

स.से.चि.से.

सेना शाखा

सं. 224, दिनांक 11 सितम्बर 2017—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर-16697 एच	मेजर	रखाल चंद्र राउथ	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16678 एच	मेजर	राकेश कुमार	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16702 एच	मेजर	श्रीकुमार के एस	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16804 वाई	मेजर	बीर सिंह	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16698 एल	मेजर	जमुना प्रसाद	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16699 एन	मेजर	जय प्रकाश सिंह	02 अप्रैल 2017

एन टी आर-16700 एक्स	मेजर	जय प्रकाश पाण्डेय	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16701 ए	मेजर	राजकुमार ई	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16703 एल	मेजर	मनोज के वी	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16704 एन	मेजर	विरेन्द्र कुमार	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16705 डब्ल्यू	मेजर	शेख जमीर अहमद	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16706 वाई	मेजर	एस रमेश	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16776 एक्स	मेजर	जयकृष्णन एम	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16777 ए	मेजर	हरप्रीत सिंह	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16779 एल	मेजर	रविन्द्र कुमार शर्मा	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16780 ए	मेजर	ए सरवन्न	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16781 एच	मेजर	मधुसूदनन पी	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16784 डब्ल्यू	मेजर	राजेन्द्र सिंह	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16805 एफ	मेजर	प्रवीन सिंह	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16807 एम	मेजर	मुरली दास आर	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16809 एक्स	मेजर	एन ओकन सिंह	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16845 एच	मेजर	ओम प्रकाश बिसनोई	02 अप्रैल 2017
एन टी आर-16862 एच	मेजर	श्री मनोज कुमार अग्निहोत्री	02 अप्रैल 2017

अल्पकालिक सेवा आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी एस-17501 डब्ल्यू	मेजर	के एस अरुण	02 अप्रैल 2017

सेना चिकित्सा सेवा

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर

एम एस-15316-के	मेजर	नवीन कुमार	22 मार्च 2017
एम एस-15332-एफ	मेजर	मुकेश कुमार	22 मार्च 2017
एम एस-15920-पी	मेजर	यू एस एस वराह मेहर	16 सितम्बर 2016
एम एस-15368-ए	मेजर	एच वानलालहुराई	22 मार्च 2017
एम एस-14965-एच	मेजर	उज्जवल प्रताप	12 अप्रैल 2016
एम एस-15109-एक्स	मेजर	बिजॉय कुमार मलिक	20 जनवरी 2017
एम एस-15198-एफ	मेजर	अमित कुमार राय	20 जनवरी 2017
एम एस-15210-एक्स	मेजर	मुहम्मद अब्दुल नजीर ए	20 जनवरी 2017
एम एस-15128-एच	मेजर	तापस कुमार मंडल	16 दिसम्बर 2016
एम एस-14942-एफ	मेजर	प्रमोद सोलंकी	30 दिसम्बर 2016
एम एस-15108-पी	मेजर	दवेन्द्र सिंह	20 जनवरी 2017
एम एस-15225-ए	मेजर	भानु कुमार शर्मा	20 जनवरी 2017
एम एस-15205-एम	मेजर	राजेन्द्र प्रताप सिंह	20 जनवरी 2017

एम एस-15216-वाई	मेजर	रवि शंकर लाल	20 जनवरी 2017
एम एस-15222-एम	मेजर	पंकज कुमार गोयल	20 जनवरी 2017
एम एस-15206-पी	मेजर	संजीव कुमार कटारा	20 जनवरी 2017
एम एस-15399-ए	मेजर	गोपाल कृष्ण यादव	20 जनवरी 2017
एम एस-14689-एल	मेजर	गीता रामादुराई	08 जून 2014
एम एस-14987-एफ	मेजर	सिद्धार्थ प्रसाद के एम	12 अप्रैल 2016
एम एस-15076-एक्स	मेजर	पाटील प्रदीप मारुती	17 मई 2016
एम एस-15123-के	मेजर	पूर्णमा शर्मा	16 दिसम्बर 2016
एम एस-14922-एन	मेजर	सुमित कुमार अग्रवाल	27 दिसम्बर 2016
एम एस-14940-डब्ल्यू	मेजर	विजय कुमार पंवार	27 दिसम्बर 2016
एम एस-15219-एम	मेजर	लाखन शितल संतू	20 जनवरी 2017
एम एस-15107-एम	मेजर	जगजीत सिंह पुरी	20 जनवरी 2017
एम एस-16247-एल	मेजर	माधुरिया बैजबरुआ	18 फरवरी 2017
एम एस-14936-एन	मेजर	अभिषेक कुमार शर्मा	27 दिसम्बर 2016

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के पद पर

एम एस-15083एन (ए एफ-28378एफ)	स्क्वाड्रन लीडर	के शंकर रेड्डी	17 मई 2016
एम एस-15178एन (ए एफ-28393एस)	स्क्वाड्रन लीडर	पिजस घोराय	16 जून 2016

सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर से सर्जन कमांडर के पद पर

एमएस-15158-ए (75899-वाई)	सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर	रोहित वर्मा	16 दिसम्बर 2016
एमएस-14866-ए (75856-जेड)	सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर	शिशिर गुप्ता	11 अगस्त 2016
एमएस-15187-पी (75908-टी)	सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर	सुमित लखनपाल	23 दिसम्बर 2016

सर्जन लेफ्टिनेंट से सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर

एम एस-16979-एफ (76168-एच)	सर्जन लेफ्टिनेंट	अंशुल वशिष्ट	21 सितम्बर 2016
एम एस-17003-के (76179-एच)	सर्जन लेफ्टिनेंट	नवीन कुमार आर	06 नवम्बर 2016
एम एस-17030-एन (76189-एफ)	सर्जन लेफ्टिनेंट	प्रवीण कुमार नाल्ला	29 दिसम्बर 2016
एम एस-17048-के (76182-आर)	सर्जन लेफ्टिनेंट	मुत्तु कमल वी के बी	29 दिसम्बर 2016
एम एस-17063-वाई (76206-डब्ल्यू)	सर्जन लेफ्टिनेंट	योगेश यादव	12 फरवरी 2017
एम एस-17055-ए (76198-ए)	सर्जन लेफ्टिनेंट	विजय कुमार वाराडा	12 फरवरी 2017
एम एस-17060-एल (76196-वाई)	सर्जन लेफ्टिनेंट	पिन्निटी अनिल	12 फरवरी 2017
एम एस-17062-डब्ल्यू (76197-जेड)	सर्जन लेफ्टिनेंट	एस एन रवि कुमार	12 फरवरी 2017
एम एस-16895-एन (76148-एन)	सर्जन लेफ्टिनेंट	अंबिका नौटियाल	23 फरवरी 2017
एम एस-18194-डब्ल्यू (76275-ए)	सर्जन लेफ्टिनेंट	श्रीनिवास आर	01 मई 2016
एम एस-17160-डब्ल्यू (76231-ए)	सर्जन लेफ्टिनेंट	अजित मोहन	06 फरवरी 2017
एम एस-17020-के (76180-के)	सर्जन लेफ्टिनेंट	सचिन भरधवाज आर	17 नवम्बर 2016
एम एस-17018-एम (76178-एफ)	सर्जन लेफ्टिनेंट	सन्निधि मोद वैकटेश	06 नवम्बर 2016
एम एस-17899-डब्ल्यू (76317-वाई)	सर्जन लेफ्टिनेंट	अमृता दतला	04 मार्च 2013
एम एस-17040-एक्स (76184-डब्ल्यू)	सर्जन लेफ्टिनेंट	नरसिमराव अरि	29 जून 2016
एम एस-16985-पी (76161-टी)	सर्जन लेफ्टिनेंट	अबिजित बि कृष्ण	21 सितम्बर 2016

एम एस-17002-एफ (76173-डब्ल्यू)	सर्जन लेफ्टिनेंट	अभिषेक शेड्ड	06 नवम्बर 2016
एम एस-17053-पी (76204-आर)	सर्जन लेफ्टिनेंट	अर्णब सेनगुप्ता	12 फरवरी 2017
एम एस-16901-डब्ल्यू (76147-के)	सर्जन लेफ्टिनेंट	रेणु एम	23 फरवरी 2017
एम एस-17015-वाई (76191-के)	सर्जन लेफ्टिनेंट	धनवंथ डी एस	06 नवम्बर 2016
एमएस-17019-पी (76175-जेड)	सर्जन लेफ्टिनेंट	पवार योगिता रामराव	06 मई 2016
एम एस-17034-के (76185-वाई)	सर्जन लेफ्टिनेंट	अजयकुमारनायक के	29 दिसम्बर 2016
एम एस-16800-एच (76118-डब्ल्यू)	सर्जन लेफ्टिनेंट	गौतम गिरिश	07 अगस्त 2016
एम एस-17043-एल (76186-जेड)	सर्जन लेफ्टिनेंट	राहुल वत्सगोत्र	29 दिसम्बर 2016
एम एस-17024-ए (76181-एन)	सर्जन लेफ्टिनेंट	जोशी प्रसन्न प्रमोद	17 नवम्बर 2016
एम एस-17525-ए (76278-एच)	सर्जन लेफ्टिनेंट	शेजाले नवीन अशोक	01 नवम्बर 2015
एम एस-17937-एफ (76310-एफ)	सर्जन लेफ्टिनेंट	सुनीश जकरिया	23 जून 2016
एम एस-17028-डब्ल्यू (76188-बी)	सर्जन लेफ्टिनेंट	नति क्रान्ति कुमार	29 दिसम्बर 2016

फ्लाईट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

निजी नंबर	पद	नाम	पदोन्नति की दिनांक
एम एस-17656-एल (ए एफ-34397-जी)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	आकृति कश्यप	06 जून 2016
एम एस-16941-एक्स (ए एफ-32371-आर)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	सनिका सी एस	02 मई 2016
एम एस-16962-एन (ए एफ-32384-एल)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	सौरभ कुशवाहा	21 सितम्बर 2016
एम एस-17411-पी (ए एफ-34067-एच)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	पवन कुमार चिरिवेला	01 नवम्बर 2015
एम एस-17469-एम (ए एफ-34088-बी)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	अफसर खानम एस एम	10 जुलाई 2015
एम एस-16796-एल (ए एफ-31409-एफ)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	एस बालाजी	26 अगस्त 2012
एम एस-16518-एक्स (ए एफ-30898के)	स्क्वाड्रन लीडर	विकास दत्त काण्डपाल	15 अगस्त 2013
एम एस-16950-वाई (ए एफ-32374-जी)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	विजय एस	04 सितम्बर 2013
एम एस-16587-एन (ए एफ-31078-के)	स्क्वाड्रन लीडर	निलोफर सिद्दीक	15 जून 2014
एम एस-16627-के (ए एफ-31082-एन)	स्क्वाड्रन लीडर	हेमकुमार येलमंचि	15 जून 2014
एम एस-16712-एम (ए एफ-31095-के)	स्क्वाड्रन लीडर	तृप्ता चौधरी	17 जून 2014
एम एस-16732-ए (ए एफ-31097-एस)	स्क्वाड्रन लीडर	फैज़ अलि मुहम्मद	06 जुलाई 2014
एम एस-16956-ए (ए एफ-32381-ए)	स्क्वाड्रन लीडर	रुद्रिका चंद्र	21 सितम्बर 2013
एम एस-17119-ए (ए एफ-32383-एच)	स्क्वाड्रन लीडर	विकास शर्मा	21 सितम्बर 2014
एम एस-16829-एल (ए एफ-32050-टी)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	प्रदीप ए	27 सितम्बर 2015
एम एस-16881-एन (ए एफ-32063-आर)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	अनंत ओबराँय	17 जुलाई 2015
एम एस-16884-एफ (ए एफ-32062-एल)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	यादव सागर श्यामलाल	17 जुलाई 2015
एम एस-16890-पी (ए एफ-32060-एफ)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	अर्जुन ए पी	17 जनवरी 2016
एम एस-16888-एक्स (ए एफ-32061-एच)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	रोहन राजन	17 जनवरी 2016
एम एस-16938-एक्स (ए एफ-32067-के)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	दर्शन देव	16 मार्च 2016
एम एस-15634-एन (ए एफ-29417-एफ)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	मोरे हर्षल पंजाबराव	06 सितम्बर 2011
एमएस-16873-पी (ए एफ-32058-एच)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	जुही अरोरा	22 मई 2015
एमएस-17238-डब्ल्यू (ए एफ-33146-एल)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	स्नेहा दिनकर	17 सितम्बर 2014
एम एस-17412-एक्स (ए एफ-34068-एल)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	टीनू सिंह	01 नवम्बर 2015

फ्लाईट लेफ्टिनेंट अनुराधा (एम एस-17280-पी) (ए एफ-33675-ए) ए एम सी, कमीशन की तिथि 11 फरवरी 2014 वेतन एवं पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 11 फरवरी 2006 से प्रभावित होगी जिसमें कुल सेवा 08 साल (5 वर्ष उनकी पिछली पूर्ण वेतन कमीशन सेवा के और 03 वर्ष और डीएनबी (ट्रबरक्लोसिस और रेस्परेटरी मेडिसिन/पल्मनरी मेडिसिन) के लिये पूर्व दिनांक वरिष्ठता शामिल है) जो कि उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी | स्क्वाड्रन लीडर के पद पर वरिष्ठता 11 फरवरी 2010 से गिनी जाएगी ।

अधिकारी को स्क्वाड्रन लीडर का पद उसकी कमीशन कि तिथि 11 फरवरी 2014 से प्रदान किया जाता है ।

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

कप्तान से मेजर के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर-16855 एम	कप्तान	देशमुख सूरज अप्पासाहेब	23 अप्रैल 2017
एन टी आर-16856 पी	कप्तान	मुहम्मद शफी पी ए	23 अप्रैल 2017
एन टी आर-16858 ए	कप्तान	जितेंद्र	23 अप्रैल 2017
एन टी आर-16859 एच	कप्तान	कवाडे अकाश अनिल	23 अप्रैल 2017
एन टी आर-16860 एक्स	कप्तान	राकेश दलाल	23 अप्रैल 2017
एन टी आर-16902 वाई	कप्तान	बिभूति कुमार साहू	23 अप्रैल 2017
एन टी आर-16904 के	कप्तान	अनूप सिंह भदोरिया	23 अप्रैल 2017
एन टी आर-16891 एक्स	कप्तान	संजय सिंह राघव	07 अप्रैल 2016

अल्पकालिक सेवा आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

कप्तान से मेजर के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी एस-17588-एच	कप्तान	श्री कुमार एस	23 अप्रैल 2017
एन टी एस-17589-एल	कप्तान	अशोक राज एम	23 अप्रैल 2017
एन टी एस-17590-ए	कप्तान	राजीव धामी	23 अप्रैल 2017
एन टी एस-17593-एन	कप्तान	जसबीर सिंह	23 अप्रैल 2017
एन टी एस-17591-एच	कप्तान	सोवित शर्मा	23 अप्रैल 2017
एन टी एस-17594-डब्ल्यू	कप्तान	कुनाल दास	23 अप्रैल 2017
एन टी एस-17596-एफ	कप्तान	गुरविंदर सिंह	23 अप्रैल 2017
एन टी एस-17598-एम	कप्तान	नवनीत कुमार	23 अप्रैल 2017
एन टी एस-17601-एफ	कप्तान	प्रदीप कुमार	23 अप्रैल 2017

सेना चिकित्सा सेवा

कप्तान से मेजर के पद पर

एम एस-16911-ए	कप्तान	विपिन कुमार प्रजापति	23 फरवरी 2017
एम एस-16940-पी	कप्तान	निधि राठी	16 मार्च 2016
एम एस-17059-डब्ल्यू	कप्तान	अतुल खुल्लर	12 अगस्त 2016
एम एस-17200-एम	कप्तान	भाग्यलक्ष्मी एस	06 फरवरी 2017
एम एस-16897-वाई	कप्तान	अरुन्जीत के के	23 फरवरी 2017
एम एस-16898-एफ	कप्तान	मनदीप कौर	23 फरवरी 2017
एम एस-16928-एन	कप्तान	विगनेश्वरन एम	23 फरवरी 2017
एम एस-16896-डब्ल्यू	कप्तान	अरुण पराशर	23 फरवरी 2017
एम एस-17138-एल	कप्तान	मनवीर सिंह	06 फरवरी 2017

एम एस-16902-वाई	कप्तान	स्वेता भारद्वाज	23 फरवरी 2017
एम एस-16913-एल	कप्तान	दीपिका चौधरी	23 फरवरी 2017
एम एस-17166-एक्स	कप्तान	संदीप ढाका	06 फरवरी 2017
एम एस-16915-डब्ल्यू	कप्तान	सर्वमित्र पाठक	23 फरवरी 2017
एम एस-17054-एक्स	कप्तान	अभिनन्दन रामपाल	12 फरवरी 2017
एम एस-16953-एम	कप्तान	आशीष कुमार गोयल	21 सितंबर 2013
एम एस-17033-एफ	कप्तान	तनवीर अहमद	29 दिसम्बर 2016
एम एस-17044-एन	कप्तान	पवन कुमार	29 दिसम्बर 2016
एम एस-17007-ए	कप्तान	निमेष कुमार तिवारी	06 नवम्बर 2016
एम एस-17014-डब्ल्यू	कप्तान	श्रीकान्त दाधीच	06 नवम्बर 2016
एम एस-18049-वाई	कप्तान	अनुपम शर्मा	29 सितम्बर 2016
एम एस-17449-वाई	कप्तान	मनोज राजे	01 नवम्बर 2016
एम एस-17701-एम	कप्तान	रितु कालरा	25 जून 2016
एम एस-17740-एल	कप्तान	दिवटे सुनील उमाकांत	12 फरवरी 2016
एम एस-16642-वाई	कप्तान	सुपिती गुप्ता	15 जून 2014
एम एस-16989-एल	कप्तान	रवि सहरावत	21 सितम्बर 2016
एम एस-17531-एन	कप्तान	अजय कुमार	01 मई 2015
एम एस-17931-ए	कप्तान	अजय पंडिता	23 जून 2016
एम एस-17011-एच	कप्तान	दीप्ती सिंह	06 नवम्बर 2016
एम एस-16552-एक्स	कप्तान	दीपक कुमार झा	10 फरवरी 2015
एम एस-16926-एच	कप्तान	आकाश कुमार मिश्रा	23 फरवरी 2017
एम एस-17069-ए	कप्तान	एच हनोक देवदास	16 मार्च 2017
एम एस-17891-के	कप्तान	अभिषेक भारती	17 जुलाई 2016
एम एस-17212-एफ	कप्तान	आशीष रापडीया	19 अप्रैल 2017
एम एस-17378-एच	कप्तान	अर्क अध्वर्यू	19 अप्रैल 2017
एम एस-16469-ए	कप्तान	महामुनि द्वारकादास नारायण राव	08 जनवरी 2014
एम एस-16916-वाई	कप्तान	आयुष चौधरी	23 फरवरी 2017
एम एस-16912-एच	कप्तान	वरुण कुमार	23 फरवरी 2017
एम एस-17471-के	कप्तान	हेमन्त सिंह चाहर	10 जनवरी 2016
एम एस-17253-एल	कप्तान	दीपक राज भट्ट	19 अप्रैल 2017
एम एस-17902-एल	कप्तान	प्रियंका विश्वकर्मा गर्ग	18 अगस्त 2016
एम एस-17909-पी	कप्तान	नेहा सहाय	02 जुलाई 2016
एम एस-16921-के	कप्तान	विवेक यादव	23 फरवरी 2017
एम एस-15983-एक्स	कप्तान	सौरभ शर्मा	11 फरवरी 2014
एम एस-17210-डब्ल्यू	कप्तान	जयन्त रस्तोगी	19 अप्रैल 2017
एम एस-16908-ए	कप्तान	अनार्ध वी	23 फरवरी 2017
एम एस-16922-एम	कप्तान	अभिनव भारद्वाज	23 फरवरी 2017
एम एस-17057-एल	कप्तान	कुमार आदर्श	12 फरवरी 2017
एम एस-17227-के	कप्तान	शिरीन दीप्ती एस	19 अप्रैल 2017
एम एस-17252-एच	कप्तान	रणजय दत्ता	19 अप्रैल 2017
एम एस-17377-ए	कप्तान	ए कार्तिक	19 अप्रैल 2017
एम एस-18204-पी	कप्तान	गुलजार मशानी	21 अगस्त 2016
एम एस-18205-एक्स	कप्तान	नीतू बाला	14 नवम्बर 2016
एम एस-16849-वाई	कप्तान	अनिल कुमार	29 सितम्बर 2015

एम एस-17067-पी	कप्तान	दिबेन्दु घोष	16 सितम्बर 2016
एम एस-17470-एफ	कप्तान	निशु बाला	10 जनवरी 2016
एम एस-17982-एन	कप्तान	लीना सिंघल	16 जुलाई 2016
एम एस-17065-के	कप्तान	वरुन कुमार	12 अगस्त 2016
एम एस-16973-ए	कप्तान	पवार अशोक भगवान	21 सितम्बर 2016
एम एस-17443-एक्स	कप्तान	मनीष सुरेश गोयल	01 नवम्बर 2015
एम एस-17674-एन	कप्तान	नेहा सुमन	23 जून 2016
एम एस-16556-एन	कप्तान	विशाल गुप्ता	10 फरवरी 2015
एम एस-17644-डब्ल्यू	कप्तान	युगांक राय	01 नवम्बर 2016
एम एस-16783-एन	कप्तान	शशांक कुमार सिंह	26 फरवरी 2016
एम एस-17399-वाई	कप्तान	राठोड नितिन विथल	01 नवम्बर 2016
एम एस-17037-एक्स	कप्तान	अमित छिकारा	29 दिसम्बर 2016
एम एस-17199-एच	कप्तान	विकास यादव	06 फरवरी 2017
एम एस-16668-एन	कप्तान	कुलदीप कुमार शर्मा	15 जून 2014
एम एस-16917-एफ	कप्तान	इरफान खान	23 फरवरी 2017
एम एस-16919-एम	कप्तान	तनमय मोहापत्र	23 फरवरी 2017
एम एस-16932-डब्ल्यू	कप्तान	प्रियेश पाण्डेय	23 फरवरी 2017
एम एस-16793-एक्स	कप्तान	प्रवीण जयराजन	26 फरवरी 2016
एम एस-16914-एन	कप्तान	अखिल के आर	23 फरवरी 2017
एम एस-16923-पी	कप्तान	रूपेश	23 फरवरी 2017
एम एस-16925-ए	कप्तान	विष्णु आर एल	23 फरवरी 2017
एम एस-16930-एल	कप्तान	अनिरुद्ध	23 फरवरी 2017
एम एस-16929-डब्ल्यू	कप्तान	ब्रिजेश कुमार पाण्डेय	23 फरवरी 2017
एम एस-16061-एफ	कप्तान	अजय कुमार	26 फरवरी 2013
एम एस-15737-एम	कप्तान	जयसवाल स्वप्निल राजेन्द्र	25 अप्रैल 2012
एम एस-16544-वाई	कप्तान	संदीप दुबे	10 फरवरी 2015
एम एस-17734-एक्स	कप्तान	मानवेन्द्र सिंह रावत	16 जनवरी 2016
एम एस-17732-एम	कप्तान	प्रशान्त झा	15 जुलाई 2016
एम एस-17023-एक्स	कप्तान	के सुभाष	17 नवम्बर 2016
एम एस-16972-एक्स	कप्तान	विकास कुमार	21 मार्च 2016
एम एस-17045-डब्ल्यू	कप्तान	आशीष गुप्ता	29 दिसम्बर 2016
एम एस-17739-डब्ल्यू	कप्तान	आशीष जैन	05 अगस्त 2016
एम एस-17052-एम	कप्तान	उमेश कुमार सिंह	29 दिसम्बर 2016
एम एस-17050-एफ	कप्तान	स्मृति गुप्ता	29 दिसम्बर 2016
एम एस-17905-वाई	कप्तान	सौमिता कर	23 दिसम्बर 2015

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेंट से कप्तान के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर-16893-एच	लेफ्टिनेंट	समीर छेत्रि	09 अप्रैल 2016

कप्तान अनूप सिंह भदोरिया (एनटीएस-17587ए अब एनटीआर-16904के) -23 अप्रैल 2013

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 03 मई 2014 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान बिक्रम (एनटीएस-17611एल अब एनटीआर-16905एम) -10 अप्रैल 2014

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 09 मई 2015 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान सुजेश पी (एनटीएस-17606ए अब एनटीआर-16906पी) -10 अप्रैल 2014

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 9 मई 2015 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान विनीथ के (एनटीएस-17597के अब एनटीआर-16907के) -23 अप्रैल 2013

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 03 मई 2014 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

लेफ्टिनेंट से कप्तान के पद पर

एम एस-17592-एल	कप्तान	टोनी ई जोसेफ	17 फरवरी 2016
एम एस-17312-एम	कप्तान	प्रसाद जयराम	03-03-2015

पी एम आर सी न० 2015/09/4739 महाराष्ट्र मेडीकल काउंसिल, मुम्बई के द्वारा जारी किया गया |

एम एस-17662-वाई	कप्तान	अखिल के पी	26 जुलाई 2016
-----------------	--------	------------	---------------

पी एम आर सी न० DMC/R/15773 दिनांक 12 सितम्बर 2016 दिल्ली मेडीकल काउंसिल के द्वारा जारी किया गया |

एमएस-17337-वाई	कप्तान	अर्जुन	03-03-2015
एमएस-17606-ए	कप्तान	अनिल कलोत्रा	17-02-2016
एमएस-17298-एल	कप्तान	दिव्या कोचर	03-03-2015
एमएस-17328-एक्स	कप्तान	निखिल कुमार	03-03-2015
एम एस-17382-एल	कप्तान	महेश कुमार ढाका	07 अगस्त 2015

पी एम आर सी न० DMC/R/16328 दिनांक 17 जनवरी 2017 दिल्ली मेडीकल काउंसिल के द्वारा जारी किया गया |

एमएस-17579-एफ	कप्तान	प्रेरणा गल्होत्रा	17-02-2016
एम एस-17332-ए	कप्तान	आदित्य कुँवर	03-03-2015
एमएस-17612-एन	कप्तान	सरोष अब्दुल्ला	21-03-2016
एमएस-17622-एक्स	कप्तान	अजय कुमार यादव	17-02-2016
एमएस-17125-एन	कप्तान	मोहम्मद जिब्रान खान	24-08-2014

फ्लाईट लेफ्टिनेंट के पद पर

एम एस-17129के (ए एफ-33149ए)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	अल्थामस	24 अगस्त 14
एम एस-17120पी (ए एफ-33148टी)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	उमेश कुमार मिश्रा	24-08-2014
एम एस-17595वाई (ए एफ-34391एफ)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	आयुष माथुर	17-02-2016
एम एस-17581-वाई(ए एफ-34099-एल)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	आदिल निशात	17-02-2016
एम एस-17596-एफ (ए एफ-34392-एच)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	अमर प्रकाश अहीरवार	17-02-2016
एम एस-17593-एन (ए एफ-34389-एच)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	मनीष कुमार शुक्ला	17-02-2016
एम एस-17087 एच(ए एफ-32737एफ)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	गौरांग पालीवाल	01 मार्च 2014
एम एस-17300एक्स (ए एफ-33681एल)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	रितम भट्टाचार्य	03 मार्च 2015

सर्जन सब लेफ्टिनेंट से सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर

एमएस-17586एक्स (76305डब्ल्यू)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	निखिल पी	17-02-2016
-------------------------------	---------------------	----------	------------

बी श्रीधर

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (मा.सं.)

सेना शाखा

सं. 225, दिनांक 12 सितम्बर 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को दिनांक 18 नवम्बर 2015 से अल्पकालिक सेवा कमीशन (सेना चिकित्सा कोर) से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 10/2001 यथा संशोधित के अधीन उपरोक्त तिथि से स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेंट के पद पर

लेफ्टिनेंट विनीथ के (एनटीएस-17597के अब एनटीआर-16907के) -23 अप्रैल 2011

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 21 अप्रैल 2012 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

लेफ्टिनेंट बिक्रम (एनटीएस-17611एल अब एनटीआर-16905एम) -10 अप्रैल 2012

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19 जनवरी 2013 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

लेफ्टिनेंट सुजेश पी (एनटीएस-17606ए अब एनटीआर-16906पी) -10 अप्रैल 2012

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19 जनवरी 2013 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

लेफ्टिनेंट अनूप सिंह भदोरिया (एनटीएस-17587ए अब एनटीआर-16904के) -23 अप्रैल 2011

(वेतन के लिए ज्येष्ठता 23 अप्रैल 2009 से प्रभावी)

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 21 अप्रैल 2012 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

बी श्रीधर

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (मा.सं.)

सेना शाखा

सं. 226, दिनांक 13 सितम्बर 2017—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त की अवधि पूरी होने पर सैनिक सेवा से निवृत्ति होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त की तिथि
एन टी एस-17480 एल	मेजर	रेनियल डेनिस थैक्यू	21 सितंबर 1961	30 सितंबर 2016 (अपराहन)

बी श्रीधर

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (मा.सं.)

सेना शाखा

शुद्धि पत्र

सं. 227, दिनांक 14 सितम्बर 2017—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन
(सेना चिकित्सा सेवा)

एम एस-17412 एक्स फ्लाईट लेफ्टिनेंट टीनू सिंह (ए एफ-34068 एल) का वायु सेना नम्बर जो की 17 अक्टूबर 2015 के राजपत्र में प्रकाशित किया है, इस में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

के लिए : ए एफ 32068 एन

पढ़ें : ए एफ 34068 एल

एम एस-16960 एच फ्लाईट लेफ्टिनेंट दीक्षा कटोच (ए एफ-32380 एस) का वायु सेना नम्बर जो की 30 अगस्त 2014 के राजपत्र में प्रकाशित किया है, इस में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

के लिए : ए एफ 32380 एफ

पढ़ें : ए एफ 32380 एस

वेतन और पदोन्नति के लिए एम एस-16667 एल (ए एफ-31079 एन) फ्ला लेफ्टि डोरले शेखर लेशराम को दिया गया ज्येष्ठता जो की 17 अक्टूबर 2015 राजपत्र में प्रकाशित किया है, इस में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

के लिए : 15.01.2010

पढ़ें : 15.12.2009

राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 05 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

फ्ला. लेफ्टिनेंट के पद पर (परख पर)

शुद्धि पत्र

वेतन और पदोन्नति के लिये, (एमएस-17280 पी) (एएफ-33675-ए) (एक्स एमएस-14140एक्स) फ्लाईट लेफ्टिनेंट अनुराधा, (कमीशन की तिथि 11.02.2014) को दी गये वरिष्ठता में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है ।

के स्थान पर—वेतन एवम पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 11.02.2007 से परभाव होगी जिसमें कुल सेवा 07 वर्ष (05 वर्ष उनकी पिछली पूर्ण वेतन कमीशन सेवा के और 02 वर्ष पीजी डिप्लोमा (यक्ष्मा एवं वक्षरोग) और डीएनबी (टूबरक्लोसिस और रेस्पिरेटरी मेडिसिन/पल्मनरी मेडिसिन) के लिये पूर्व-दिनांक वरिष्ठता शामिल हैं) जो कि उपादान के लिये नहीं गिनी जाएगी ।

पढ़ें—वेतन एवम पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 11.02.2006 से परभाव होगी जिसमें कुल सेवा 08 वर्ष (05 वर्ष उनकी पिछली पूर्ण वेतन कमीशन सेवा के और 03 वर्ष डीएनबी (टूबरक्लोसिस और रेस्पिरेटरी मेडिसिन/पल्मनरी मेडिसिन) के लिये पूर्व-दिनांक वरिष्ठता शामिल हैं) जो कि उपादान के लिये नहीं गिनी जाएगी ।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

बी श्रीधर

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (मा.सं.)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 228, दिनांक 15 सितम्बर 2017—राष्ट्रपति द्वारा सहर्षपूर्वक निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से रु. 15600—39100/— (पे बैंड-3) + रु. 5400/— (ग्रेड पे) के वेतनमान में दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2014AB1001	श्री आकाश मंघनानी	ए डी ई, बेंगलूर	01.08.2014
2014AB1038	श्री मंजीत कुमार यादव	डी ए आर ई, बेंगलूर	01.08.2014
2015AB1096	श्री निषाद पी एस	एच ई एम आर एल, पुणे	14.12.2015
2014AB1025	सुश्री सबा सुहैल	जे सी बी, दिल्ली	01.08.2014
2015AB1075	श्री कौस्तुभ गराई	एल आर डी ई, बेंगलूर	29.12.2015
2008CK1104	श्री विजय कृष्णा	एन एस टी एल, विशाखापत्तनम	25.01.2016
2014AB1007	श्री नरेन्द्र मीना	एस ए जी, दिल्ली	01.08.2014

राष्ट्रपति द्वारा सहर्षपूर्वक निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से रु. 15600—39100/— (पे बैंड-3) + रु. 6600/— (ग्रेड पे) के वेतनमान में एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'सी' (ग्रुप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2015AC1008	सुश्री कुमकुम उनियाल	शिप बिल्डिंग सेंटर, नेवल बेस पोस्ट, विशाखापत्तनम	08.08.2015

निशी श्रीवास्तव
अपर-निदेशक/कार्मिक (डी आर डी एस-II)

सेना शाखा

सं. 229, दिनांक 18 सितम्बर 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

मेजर से ले कर्नल

पर्सनल सं.	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
आई सी 55658	मीतेन्द्रा कुमार	आर्टी	24 अक्टूबर 2016
आई सी 57290	ए एम शर्मा	आर्टी	24 अक्टूबर 2016
आई सी 59315	अमरजीत सी	ए एस सी	24 अक्टूबर 2016
आई सी 61100	प्रदीप के एम	ई एम ई	24 अक्टूबर 2016
आई सी 61895	एस के सरोज	इंफैंट्री	24 अक्टूबर 2016
आई सी 61948	प्रदीप सिंह	ए सी	24 अक्टूबर 2016
आई सी 62207	सुधीर गोपी	इंट	24 अक्टूबर 2016
आई सी 62333	वी सुब्रामंन्यन	इंफैंट्री	24 अक्टूबर 2016
आई सी 62385	दीपक कुमार	इंफैंट्री	24 अक्टूबर 2016
आई सी 62697	ए डी कुमार	इंजीनियर्स	24 अक्टूबर 2016
आई सी 62885	इन्दरजीत सिंह	इंजीनियर्स	24 अक्टूबर 2016
आई सी 63099	ए जचरिया	इंट	24 अक्टूबर 2016
आई सी 63452	अहीन्द्रा डे	ए ओ सी	13 दिसम्बर 2016

पर्सनल सं.	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
आई सी 63550	जी एस रावत	ई एम ई	13 दिसम्बर 2016
आई सी 63574	एस एस शर्मा	इंफैंट्री	13 दिसम्बर 2016
आई सी 63607	नवनीत सिंह	इंफैंट्री	13 दिसम्बर 2016
आई सी 63627	आर एस भदुरिया	इंफैंट्री	13 दिसम्बर 2016
आई सी 63671	राकेश कुमार	ई एम ई	13 दिसम्बर 2016
आई सी 63676	ए एस मोर्या	सिग्नल्स	13 दिसम्बर 2016
आई सी 63716	राहुल जुयाल	सिग्नल्स	13 दिसम्बर 2016
आई सी 63728	एस पी एस चौहान	ए ई सी	13 दिसम्बर 2016
आई सी 63751	अजय कुमार	इंट	24 अक्टूबर 2016
आई सी 64380	जे एस मक्कड	इंट	24 अक्टूबर 2016
आई सी 64793	दिव्या कुमार	ई एम ई	24 अक्टूबर 2016
आई सी 64808	पुष्पेन चन्द्रा	इंजीनियर्स	24 अक्टूबर 2016
आई सी 65162	अभिषेक शर्मा	आर्टी	24 अक्टूबर 2016
आई सी 65234	ए एम सिंह	ए सी	24 अक्टूबर 2016
आई सी 65279	अजय कुमार	इंफैंट्री	24 अक्टूबर 2016
आई सी 65408	जी राजीव	इंफैंट्री	24 अक्टूबर 2016
आई सी 65603	एम के जोशी	ए एस सी	24 अक्टूबर 2016
आई सी 65688	आर बक्शी	इंफैंट्री	24 अक्टूबर 2016
आई सी 65841	के सिंह	ए एस सी	08 नवम्बर 2016
आई सी 65855	एस कौशल	इंजीनियर्स	08 नवम्बर 2016
आई सी 65857	एस मेहता	आर्टी	08 नवम्बर 2016
आई सी 65862	ए शर्मा	इंजीनियर्स	08 नवम्बर 2016
आई सी 66167	महेश बी ए	इंजीनियर्स	24 अक्टूबर 2016
आई सी 66347	अमित कुमार	सिग्नल्स	24 अक्टूबर 2016
आई सी 66362	के पी चारुदत्ता	इंजीनियर्स	24 अक्टूबर 2016
आई सी 66507	सुरज सिन्हा	सिग्नल्स	24 अक्टूबर 2016
आई सी 66511	पंकज वर्मा	सिग्नल्स	24 अक्टूबर 2016
आई सी 66515	वी के फोगट	ई एम ई	24 अक्टूबर 2016
आई सी 66520	दीपक वर्मा	ई एम ई	24 अक्टूबर 2016
आई सी 67365	प्रमोद मेहता	सिग्नल्स	24 अक्टूबर 2016
आई सी 67367	पी वासुदेवन ए	इंजीनियर्स	24 अक्टूबर 2016
आई सी 67864	प्रयास पाण्डे	ए सी	14 दिसम्बर 2016
आई सी 67868	एस चक्रवर्ती	इंजीनियर्स	14 दिसम्बर 2016
आई सी 67869	एस वी रामचन्द्रा	ई एम ई	14 दिसम्बर 2016
आई सी 67877	ए त्रिवेदी	ए सी	14 दिसम्बर 2016
आई सी 67878	एस पी मधुरकर	सिग्नल्स	14 दिसम्बर 2016
एस सी 00311	टी वर्गीज	आर्टी	24 अक्टूबर 2016
एस सी 00321	कृष्णा एम टी आर	इंफैंट्री	24 अक्टूबर 2016
एस सी 00395	हरीश सी बी	ए ओ सी	24 अक्टूबर 2016

पर्सनल सं.	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
एस सी 00450	रमेश कुमार	सिग्नल्स	24 अक्टूबर 2016
एस सी 00456	लखविंदर सिंह	ई एम ई	13 दिसम्बर 2016
एस एल 04754	जसवीर सिंह	एस एल टी ओ टी	24 अक्टूबर 2016

पर्सनल सं.	नाम	आर्म
आई सी 62170	बलवीर सिंह	ई एम ई
आई सी 64854	अनुराधा शर्मा	ए ई सी

—26 अक्टूबर 2015—

पर्सनल सं.	नाम	आर्म
63426	अमित ज्योति लहकर	इंफैन्ट्री

—13 दिसम्बर 2016—

आई सी सं.	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
63520	रविंदर सिंह	ए ओ सी	13 दिसम्बर 2016
63605	आदित्य मोहन	ए सी	13 दिसम्बर 2016
63668	अंकूर मित्तल	इंजीनियर्स	13 दिसम्बर 2016
65869	मंदीप शेरगिल	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
67838	सिमरन सिंह भाटी	ए सी	14 दिसम्बर 2016
63604	अमित कुमार त्यागी	इंफैन्ट्री	13 दिसम्बर 2016
63695	एन एम कंजोडे	ई एम ई	13 दिसम्बर 2016
63703	डी एन एम सिंह	सिग्नल्स	13 दिसम्बर 2016
64799	पवन कुमार जी	इंजीनियर्स	24 अक्टूबर 2016
65883	एम डी चन्द्रन	ई एम ई	08 नवम्बर 2016
72791	दीनबन्धु	इंजीनियर्स	21 अप्रैल 2017
72800	सतीश कुमार	सिग्नल्स	21 अप्रैल 2017
63658	आशीष ढोगरा	ई एम ई	13 दिसम्बर 2016
65782	पी अप्पाला सत्यप्रसाद	इंफैन्ट्री	07 मई 2017
65909	टेकावडे अतुल मूर्ति	ए ए डी	06 मई 2017
65911	अमित कंवर	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65913	ब्रहमा शैरीमयूम हीरेन्द्रा शर्मा	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65914	आदित्य साई जी एन डी	आर्टी	06 मई 2017
65915	अशोक भंडारी	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65916	घर्मेन्द्र जयराम सिंह	इंजीनियर्स	06 मई 2017
65917	आर विजीन रवी	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65918	थारवानी हरेष भगवानदास	ए ए डी	06 मई 2017
65920	अमनदीप सिंह ओलक	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65921	करन सिंह	इंफैन्ट्री	06 मई 2017

आई सी सं.	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
65922	प्रशांत कुमार देशमुख	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65924	यश श्रीवास्तवा	इंजीनियर्स	06 मई 2017
65926	एन मधु	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65927	सुरेन्द्र सिंह मेहता	आर्टी	06 मई 2017
65928	राजीव तोमर	आर्टी	06 मई 2017
65930	विनय सहजपाल	ए एस सी	06 मई 2017
65934	कमल रावत	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65935	अमरिंदर सिंह बेंस	ए एस सी	06 मई 2017
65936	कुंवर सिंह नेगी	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65937	कमलदीप सिंह	ई एम ई	06 मई 2017
65941	अमिताभ डागर	ए एस सी	06 मई 2017
65942	दिनेश प्रकाश कादियान	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65948	अतुल मेहता	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65950	जयंत जोशी	ई एम ई	06 मई 2017
65951	भुपेन्द्र सिंह	ए एस सी	06 मई 2017
65952	कुमार शौरव	ए सी	06 मई 2017
65953	संदीप कुमार	ए ओ सी	06 मई 2017
65954	तुरुण कंवर	ए एस सी	06 मई 2017
65956	विजय चंद	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65957	लायसराम राजु सिंह	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65959	मोहन वी	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65960	करन मेहता	ए सी	06 मई 2017
65961	हरीश चंदर	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65963	विकास कुमार	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65964	तरनबीर सिंह मीनहास	ए सी	06 मई 2017
65966	प्रताप कुमार	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65968	हरीश धारीवाल	ए एस सी	06 मई 2017
65971	अभयनकर रोहित सुरेश	इंजीनियर्स	06 मई 2017
65974	जुर्रत अमेज शरीफ	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65976	कमल भट्ट	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65977	राजेश माधवानी	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65985	इशवंत सिंह	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65986	जी पी केशव	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65987	मयंक पुंडीर	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65988	दीपक बयाला	ए सी	06 मई 2017

आई सी सं.	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
65989	कुमार शौरभ	आर्टी	06 मई 2017
65990	अर्शप्रीत सिंह	जी मेक	06 मई 2017
65991	चाणक्या सिंह खंगारोत	ए सी	06 मई 2017
65992	अभिषेक दत्ता	आर्टी	06 मई 2017
65996	आशीष मल्होत्रा	ए ओ सी	06 मई 2017
65997	दुबे शशी नरेन्द्रा	सिग्नल्स	06 मई 2017
65998	भुपेश पठानिया	ई एम ई	06 मई 2017
66000	प्रवीन शर्मा	आर्टी	06 मई 2017
66001	अरविंद कपूर	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
66006	विरेश प्रताप सिंह	जी/मेक	06 मई 2017
66007	समीर दहीवेलकर	आर्टी	06 मई 2017
66011	अशोक कुमार	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
66013	चक्रधर सान्याल	सिग्नल्स	06 मई 2017
66019	नगेन्द्र सिंह राठौड	ए सी	06 मई 2017

आई सी सं.	नाम	आर्म
66033	गोडबोले सारिका सत्येन्द्रा	ए ई सी

—06 मार्च 2017—

आई सी सं.	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
66374	विकास खरे	ई एम ई	19 अप्रैल 2017
66375	मानक मदान	सिग्नल्स	19 अप्रैल 2017
72786	सैथिल आनंद	सिग्नल्स	21 अप्रैल 2017
72789	संदीप सिंह	इंजीनियर्स	21 अप्रैल 2017
72797	विनय कुमार सिंह	ई एम ई	21 अप्रैल 2017
72801	गिरी रतना सिंह	सिग्नल्स	21 अप्रैल 2017
67829	बलजीत सिंह चीमा	ई एम ई	14 दिसम्बर 2016
67364	अर्जुन समपथ	इंजीनियर्स	15 जून 2016

एस सी सं.	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
00260	कुलदीप सिंह	सिग्नल्स	24 अक्टूबर 2016

पर्सनल सं.	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
एस एल-04393	डी एन रथ	एस एल (क्यू एम)	26 अप्रैल 2010
एस एल 04986	सुरेन्द्रा कुमार	एस एल (आर ओ)	08 जून 2015

डब्ल्यू एस सं.	नाम	आर्म
00741	श्वेता चौहान	ए ओ सी
00778	प्रीना वर्मा	इंजीनियर्स

—08 मार्च 2017—

एस एस सं.	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
41791	निखिल कुमार सिंह	इंजीनियर्स	21 अप्रैल 2017

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारी को सहर्ष पदोन्नत करते हैं। ये पदोन्नती एस एल पी (सिव) सं. 9367-9369/2011 जिसका शीर्षक सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबिता पूनिया एवं अन्य है, के अंतिम निर्णय के शर्त पर दिया जाता है।

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यू एस)

मेजर से ले. कर्नल

डब्ल्यू एस संख्या	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
00502	ममता सिंह	ए एस सी	24 अक्टूबर 2016
00664	कुमारी मनीषा तिवारी	ई एम ई	24 अक्टूबर 2016
00704	बबीता यादव	ए ओ सी	24 अक्टूबर 2016
00720	विनीता जोसफ	इंट	24 अक्टूबर 2016
00722	अर्चना शर्मा	इंजीनियर्स	24 अक्टूबर 2016

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं !

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यू एस)

मेजर से ले. कर्नल

डब्ल्यू एस सं.	नाम	आर्म
01078	वंदना नारायणन	ई एम ई
01120	पल्लवी वर्मा	इंजीनियर्स

—17 मार्च 2017—

अल्पकालीन सेवा कमीशन

कप्तान से मेजर

एस एस सं.	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
44081	दिव्या ए	ए ए डी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44083	थेजास्मिता एम	सिग्नल्स	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44088	अंकिता कंवर	ए वी एन	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44104	अंकिता मिश्रा	ए एस सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44105	अर्चिता पंडित	सिग्नल्स	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44107	दिप्ती राना	ए एस सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44111	नम्रता सिंह	ए एस सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44112	सुर्वे प्रियंका प्रकाश	सिग्नल्स	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44115	सीमा कुमारी	ए एस सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44116	पेतसंगबम रोशनीरामा	ई एम ई	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44128	तृप्ति	ए एस सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44130	नेहा परमार	इंट	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17

एस एस सं.	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
44139	महक इकबाल	ए ए डी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44141	सोनिया राजपूत	जैग	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44143	रुचिका राठौर	ए ओ सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44149	सुजाता श्रीवास्तवा	इंट	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44155	देवकी हरभजन सिंह कासवान	ए एस सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44156	शिंदे प्रेरणा दीपक	ए एस सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44159	जसजीत कौर	ए एस सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44166	सुभलक्ष्मी बोरगोहें	ए ओ सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44175	पूजापाल	ए एस सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44178	मनीषा यादव	जैग	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44183	मनदीप कंबोज	ए ए डी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44186	सलेन खाखा	जैग	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44197	सीमा दलाल	इंट	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44205	सलेहा हक	ई एम ई	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44206	एकता मेहता	ए एस सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44208	विनिता सिंह	ए ई सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44215	तनिवा साहा	ए एस सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44216	अनिकेत गौर	ए एस सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44217	स्मिता पुष्करणा	ए आ'सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44218	स्वर्णिका चमोला	जैग	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44220	रेणु सिंह	जैग	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44223	सोनाली तिवारी	जैग	18 सितम्बर 10	एस एस सी डब्ल्यू-04 (एनटी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44084	आदित्य नारायण सिंह	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44085	दीपक चंद	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44086	सुर्जन सिंह नेगी	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44087	विवेक श्रीवास्तवा	ए सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44090	जगदीप सिंह मनहास	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44091	जगदीश रेड्डी संगू	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44092	मानु तंवर	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44093	रवि ढिल्लन	ए ओ सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44095	विकास शर्मा	जैग	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44096	मंगेकर धिरज दिलीप	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44098	संतोष कुमार सिंह	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44099	अरविन्धन आर	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17

एस एस सं.	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
44100	अरुण कुमार सिंह	मैक	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44101	जुब्बाला कृष्ण चैतन्य	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44103	पंकज कुमार	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44106	चौधरी शिवाजी संपतराव	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44108	मनिन्दर सिंह	जैग	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44109	राजा गुरुंग	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44114	निरज कुमार यादव	इंजीनियर्स	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44117	वैभव भटनागर	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44118	सोनम तोपदेन भुटिया	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44119	विकास कुमार	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44120	अजमल सिंह	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44121	मुनिन्द्रा हजारिका	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44122	अंगद सिंह गिल	ए सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44123	मनीष कुमार पांडे	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44124	अभिनव चौधरी	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44125	सुनिल कुमार जाखर	ए ओ सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44126	करन दाया	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44127	विलियमजीत सिंह दिल्लीन	जैग	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44129	मोहिन्दर पाल सिंह	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44131	सुनिल कुमार मिश्रा	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44133	प्रभात कुमार	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44134	चंदन सिंह	ए सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44135	बिबिन थोमस	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44136	सरवजीत सिंह खत्री	इंट	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44137	संदीप कुमार	ए ए डी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44138	राजवीर सिंह चौहान	एवीएशन	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44140	सचिन कुमार	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44142	ध्रुव कुमार जैन	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44144	प्रशांत मुदगिल	ए एस सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44145	कमल ठाकुर	ए ए डी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44146	रविन्दर सिंह	ए एस सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44148	युवावीर कादयान	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44150	वी कृष्णन	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44151	जादूमनि साहू	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17

एस एस सं.	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
44152	प्रणव प्राशर	मैक	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44153	डिमेलो फ्रैंकलिन जोसेफ	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44154	एबी मैथ्यू	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44157	कौटिन्हो कार्ल एंड्रयू	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44158	सुमित कातल	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44160	प्रशांत गुरुंग	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44162	ऋषभ ममगैन	ए सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44163	पंकज शर्मा	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44164	अशोक जागिड	ए ए डी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44165	विनोद कुमार	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44167	चैतन्या वी के	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44169	अर्जुन सिंह कटोच	जैग	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44171	पंकज कुमार	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44172	रविशंकर एच एन	इंजीनियर्स	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44173	रोहिताश सिंह	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44174	विजय सिंह	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44176	नरिन्दर शर्मा	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44177	लक्ष्मी कांत यू आर	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44179	वैभव कुमार	जैग	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44180	मनमोहन सिंह राठौर	ए ओ सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44182	रवि वत्स	ए एस सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44185	एस वी चंद्र शेखर	मैक	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44188	अभिमान्यु शर्मा	ई एम ई	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44189	सन्नी वर्मा	मैक	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44190	राकेश सिन्हा	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44191	करुणेन्द्र तिवारी	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44192	विमल मैथ्यू	सिग्नल्स	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44193	विकास कुमार	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44194	अतुल गुप्ता	जैग	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44195	जय कांत शुक्ला	ए ए डी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44196	अंकित शर्मा	ई एम ई	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44199	अरविन्द आर कौशिक	ए ओ सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44201	राजीव बावा	ए सी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44202	विजया सी	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17

एस एस सं.	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
44203	श्रीचंद सी नायर	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44204	शोभित रंजन	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44207	मनदीप सिंह लेहिल	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44209	अजय गुप्ता	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44210	विजय कुमार	आर्टी	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44211	दीपक सांगवान	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44212	गौरव जीत सिंह	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44213	फक्कीरप्पा बी के	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44214	आदित्य जयसवाल	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44221	राजेश कुमार यादव	सिग्नल्स	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
44222	फैज उल्लाह खान	इंफैन्ट्री	18 सितम्बर 10	एस एस सी-90 (एन टी)	18 अप्रैल 11	18 अप्रैल 17
45427	पंकज रावल	मैक	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45428	देवेन्दर सिंह	मैक	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45429	जमरुदवाजदी	ए सी	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45430	रजत कुमार पांडे	आर्टी	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45431	नंदा कुमार बी	इंफैन्ट्री	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45432	वरुण उपाध्याय	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45434	मैकी जुनेजा	इंट	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45436	अनुज शर्मा	इंफैन्ट्री	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45438	मनीष कुमार सिंह	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45441	रवि शुक्ला	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45442	हिमांशु बालियान	ए एस सी	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45444	उमा शंकर ननजप्पा	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45446	मंजीत तक्षक	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45448	कैलाश कुमार राय	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45450	अंकित देवरारी	ए ओ सी	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45451	सूरज कुमार रघुवंशी	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45452	कार्थिक हरि	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45454	मनीष दुबे	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45456	सुमित शर्मा	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45457	रोहित राठी	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45458	पदम सिंह	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45459	जी वरुण	ए ए डी	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45463	जयेश नंदकुमार देशाई	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17

एस एस सं.	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
45464	नितेश कुमार	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45465	अभिषेक पांडे	ए ओ सी	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45466	हिमांशुब लोधी	ए ए डी	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45467	प्रवीण कुमार मिश्रा	आर्टी	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45469	ऋतु राज	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45470	अमरजीत सिंह	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45472	सुधीर कुमार	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45474	कृष्ण कुमार	मैक	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45476	बी एस पद्माकर नागी रेड्डी	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45482	पीयूष पांडे	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45483	सुजीत चौधरी	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45484	निशांत मेहता	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45487	राजकुमार सिंह	इंफैन्ट्री	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45488	अंगादी राजेशेकर	इंट	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45490	अंकुश शर्मा	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45491	सिंह विक्रांत भूप सिंह	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45493	सुधांशु राय	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45494	धर्मेन्द्र चंदेल	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45495	महर्ष शाह	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45496	अक्षय सेठी	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45497	स्वीकार भारद्वाज	आर्टी	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45498	वमोरकर सारंग अनिल	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45504	सुब्रत देबबर्मा	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45505	संदीप शर्मा	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45506	दुर्गेश नंदकुमार वानास्कर	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45507	पवन कुमार	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45510	राहुल धामा	इंफैन्ट्री	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45512	महावीर प्रसाद जांगिड	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45513	अंशुमन राय	ए एस सी	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45515	गौरव तक	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45516	तडफाले ओंकार सतीश	इंफैन्ट्री	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45517	सुनील कुमार सुथार	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17

एस एस सं.	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
45518	अतुल विक्रम सिंह	इंफैन्ट्री	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45519	बी के जेस्से जैकसन	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45522	रितेश कुमार मिश्रा	आर्टी	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45523	हितेश इस्सर	ए एस सी	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45524	आर विग्नेष	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45525	नितेश चौहान	इंफैन्ट्री	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45527	तारिक राजा अंसारी	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45528	सूरज जोशी	ए सी	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45531	श्रेष्ठ जोशी	ए सी	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45533	संतोष कुमार	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45534	स्नेन्द्र सिंह	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45536	देशमुख रविराज संभाजीराव	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45538	सन्नी सिंह	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45540	अंशुल ठाकुर	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45541	जतिन खुराना	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45544	सिद्धार्थ मोहन	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी-36 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17

अल्पकालीन सेवा कमीशन (एस एस सी डब्ल्यू)

कप्तान से मेजर

एस एस सं.	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
45425	गगनदीप कौर	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45426	इला वोहरा	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45433	दिप्ती यादव	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45435	वैशाली	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45437	सुचिका	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45439	रुचि भदुला	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45440	सबनिस आर्चिस दीपेन	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45443	पटिल श्रुति हनमंत राव	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45445	कनिका सैनी	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45447	दीप्ती भट्ट	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45449	श्वेता गुलेरिया	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45461	परनिका सांगवान	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45462	दिव्या कोचर	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45468	स्मिता कलवानिया	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45471	पार्वती राज	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17

एस एस सं.	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
45473	सिद्धि ओझा	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45475	रिचा यादव	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45477	गगनदीप कौर	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45479	नम्रता जोधा	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45480	तरुशी मोहन	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45481	परुल अरोड़ा	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45486	वर्षा जैन	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45489	प्रेरणा छेत्री	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45492	बंदना सलाथिया	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45500	अंजू यादव	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45501	प्रियंका बंसोद	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45502	कल्पना सरन	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45503	चारु	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45508	मोनिका मलिक	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45509	नेहा चौहान	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45511	रुपिन्दर कौर कलकत	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45514	परमवीर कौर	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45520	सिन्डी देओरी	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45521	नेहा सिंह	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45526	हरप्रीत कौर बहिया	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45529	श्वेता पांडे	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45532	नेहा अग्रवाल	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45537	अशिका मिश्रा	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45539	संगीता नाथ	ई एम ई	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17
45543	नेहैल शाहनवाज	इंजीनियर्स	20 मार्च 11	एस एस सी डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 17

स्थायी कमीशन

ले. से कप्तान

आई सी नं.	नाम	आर्म	कप्तान दिनांक से
73013	स्मिता	ए ई सी	16 मार्च 2010
73014	श्रीवास्तवा पारुल अनुपचंद्रा	ए ई सी	16 मार्च 2010
73488	नवजोत कौर	ए ई सी	22 सितम्बर 2011

आई सी सं.	नाम	आर्म
78462	अक्षय डोरा	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म
79461	राहुल टी आर	इंजीनियर्स
79512	निखिल रवि	इन्फैन्ट्री

—14 जून 2015—

80746	हेमन्त चहर	ई एम ई
80747	मंगल पाण्डेय	आर्टी
80773	गौरव शुक्ला	ए एस सी
80778	सुभम चौहान	मेक
80787	जसदीप सिंह	इंट
80798	इशान रावत	इंजीनियर्स
80802	सिजो टी जोस	आर्टी
80810	अनुज कुमार यादव	इन्फैन्ट्री
80819	गिरिश सिंह ठाकुर	आर्टी
80834	हरि प्रताप सिंह राठौर	आर्टी
80851	वरदान सक्सेना	ए ए डी
80880	देविन्दर सिंह	इंजीनियर्स
80897	अभिषेक सिंह सरमल	इंजीनियर्स

—15 जून 2016—

अल्प-कालीन सेवा कमीशन
ले. से क्वासी-सब्सटेनटिव कप्तान

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	क्वासी सब्सटेनटिव कप्तान दिनांक से
42867	सुमीर सिंह	इन्फैन्ट्री	22 मार्च 2017
42919	दिनेश चहल	इन्फैन्ट्री	22 मार्च 2017
42920	नीरज शर्मा	इन्फैन्ट्री	22 मार्च 2017
42966	बलहंश गुप्ता	इन्फैन्ट्री	22 मार्च 2017
42978	शमिन्दर सिंह सिधु	इन्फैन्ट्री	22 मार्च 2017

एम पी शर्मा
उप निदेशक
एम एस 8सी

सं. 230, दिनांक 19 सितम्बर 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

थलसेना विभाग (एम जी ओ)		
इलेक्ट्रॉनिक्स और मेकेनिकल इंजीनियरिंग कर्मिक		
नायब सूबेदार ड्राइवर स्पेशल वेहिकल के रैंक में		
फिरोज अहमद साह	(14619643 ए अब जेसी-774321 वाई)	01 जून 2017
धूरा राम	(14619667 के अब जेसी-774313 ए)	01 जून 2017
नायब सूबेदार ड्राइवर एम टी के रैंक में		
मोहम्मद इस्तियाक	(14619670 के अब जेसी-774320 डब्ल्यू)	01 जून 2017
राना रंजित कुमार	(14619668 एम अब जेसी-774316 एन)	01 जून 2017

छगन राम गोदारा	(1461672 पी अब जेसी-774324 एम)	01 जून 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
सुशिल किरतोनिया	(14619719 पी अब जेसी-774325 पी)	01 जून 2017
सहेंद्र सिंह	(14619425 एफ अब जेसी-774311 पी)	01 जून 2017
अवध बिहारी सिंह	(14619641 पी अब जेसी-774314 एच)	01 जून 2017
राजेश टी एन	(14663876 एफ अब जेसी-774275 पी)	01 मई 2017
खेमा राम	(14619671 एम अब जेसी-774323 के)	01 जून 2017
खुशाल चंद खत्रि	(14619669 पी अब जेसी-774319 एफ)	01 जून 2017
बिशन सिंह नेगी	(14619695 डब्ल्यू अब जेसी-774322 एफ)	01 जून 2017
चौहान विरेंद्र सिंह नारायन एस	(14619607 पी अब जेसी-774312 एक्स)	01 जून 2017
विश्वकुमार जी	(14619292 डब्ल्यू अब जेसी-774318 वाई)	01 जून 2017
नायब सूबेदार ड्राईवर स्पेशल वेहिकल के रैंक में		
गुलाब यादवा	(14619427 एम अब जेसी-774315 एल)	01 जून 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
नायब सूबेदार एम टेक ए वी एन (ए इ) के रैंक में		
पाटिल सचिन दाजी	(14657807 पी अब जेसी-774263 ए) 01 मई 2017	
नायब सूबेदार एम टेक ए वी एन ;ए एफ) के रैंक में		
टी अरुल मुरुगन	(14649176 एच अब जेसी-774264 एच)	09 मई 2017 / 01 मई 2017
नायब सूबेदार एम टेक ए वी एन (सी एस) के रैंक में		
सुजिथ एस	(14661381 डब्ल्यू अब जेसी-774265 एल)	01 मई 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
नायब सूबेदार एम टेक सी वेहिकल के रैंक में		
कल्याण सिंह जीना	(14631452 एक्स अब जेसी-774115 पी)	11 मई 2017 / 11 मार्च 2017
नायब सूबेदार एम टेक बी वेहिकल के रैंक में		
राम कुमार सिंह	(14637593 एच अब जेसी-774204 एन)	16 मई 2017 / 01 मई 2017
प्रेम प्रकाश जाट	(14633502 डब्ल्यू अब जेसी-774205 डब्ल्यू)	11 मई 2017 / 01 मई 2017
सुनील सिंह	(14638016 एच अब जेसी-774212 एम)	01 मई 2017
कार्तिकेयन आर	(14634174 ए अब जेसी-774257 एम)	01 मई 2017
नायब सूबेदार एम टेक गण के रैंक में		
हेम सिंह	(14626275 वाई अब जेसी-774243 एम)	01 मई 2017
भगीरथ	(14635923 एक्स अब जेसी-774253 डब्ल्यू)	13 मई 2017 / 01 मई 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
नायब सूबेदार ड्राईवर स्पेशल वेहिकल के रैंक में		
समीर डे	(14619387 डब्ल्यू अब जेसी-774221 एन)	01 मई 2017
सुभाष चन्द्र सैनी	(14619418 एल अब जेसी-774278 एच)	01 मई 2017
राजेन्द्र सिंह	(14619421 एल अब जेसी-774279 एच)	01 मई 2017
शोभ नाथ प्रजापति	(14619660 ए अब जेसी-774272 एफ)	01 मई 2017
अनिल कुमार	(14619661 एच अब जेसी-774273 के)	01 मई 2017

श्री निवास यादव	(14619665 वाई अब जेसी-774280 ए)	01 मई 2017
शैख बाबुलाल फरिद	(14619589 एक्स अब जेसी-774269 एफ)	01 मई 2017
कुलदीप सिंह	(14619376 के अब जेसी-774219 डब्ल्यू)	01 मई 2017
राजबीर	(14619380 एम अब जेसी-774220 एल)	01 मई 2017
नायब सूबेदार ड्राईवर एम टी के रैंक में		
बी भागीरथी डोरा	(14618618 पी अब जेसी-774277 ए)	01 मई 2017
अब्दुल हई	(14619388 वाई अब जेसी-774268 वाई)	01 मई 2017
मनबर सिंह रावत	(14619694 एन अब जेसी-774281 एच)	01 मई 2017
जस्वीर कतेवा	(14619638 पी अब जेसी-774274 एम)	01 मई 2017
रबिन्द्र सिंह नेगी	(14619689 एच अब जेसी-774270 डब्ल्यू)	01 मई 2017
मधु पी एस	(14639484 पी अब जेसी-774267 डब्ल्यू)	01 मई 2017
मुलानि मुहम्मद शरीफ नाबीलाल	(14651988 पी अब जेसी-774276 एक्स)	01 मई 2017
जग लाल	(14619635 एफ अब जेसी-774271 वाई)	01 मई 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
नायब सूबेदार वेलडर के रैंक में		
नगिल्ला श्रीनिवास्लू	(14620511 वाई अब जेसी-774290 के)	01 मई 2017 / 01 मार्च 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
नायब सूबेदार अटो टेक बी वैहीकल के रैंक में		
विश्वनाथन ए जी	(14620957 एन अब जेसी-774304 वाई)	01 जून 2017
राकेश कुमार रंजन	(14619329 एम अब जेसी-774333 एन)	01 जून 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
नायब सूबेदार एम टेक गण के रैंक में		
अटल विहारि जेथि	(14636935 वाई अब जेसी-774306 के)	01 जून 2017
मोजम्मल हुसैन	(14637287 एन अब जेसी-774307 एम)	01 जून 2017
स्वपन कुमार सामन्दा	(14637900 पी अब जेसी-774341 एम)	01 जून 2017
नायब सूबेदार एम टेक रंडर के रैंक में		
मनीष कुमार	(14651829 एक्स अब जेसी-774344 ए)	02 जून 2017 / 01 जून 2017
तपस मजुमदार	(14649012 एम अब जेसी-774309 एक्स)	01 जून 2017
सनोज एम एस	(14650014 के अब जेसी-774310 एम)	01 जून 2017
नायब सूबेदार एम टेक कम्यूनिकेसन के रैंक में		
अतुल प्रसाद घोष	(14634498 एल अब जेसी-773966 पी)	01 जून 2017
शंभु कुमार	(14634542 के अब जेसी-774337 के)	01 जून 2017
एम डी सोहराब खान	(14635503 एक्स अब जेसी-774199 एन)	27 मई 2017 / 02 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार एम टेक नेटवर्क के रैंक में		
अवधेश कुमार गुप्ता	(14658361 एक्स अब जेसी-774340 के)	01 जून 2017
नायब सूबेदार एम टेक जी सी इ के रैंक में		
रकम सिंह	(14638042 के अब जेसी-774346 एल)	01 जून 2017
महेन्द्र सिंह	(14637764 के अब जेसी-774347 एन)	01 जून 2017

सागरेन्द्र कुमार गुप्ता	नायब सूबेदार एम टेक ए वेहीकल के रैंक में (14639635 एच अब जेसी—774345 एच)	01 जून 2017
प्रदीप कुमार	नायब सूबेदार एम टेक बी वेहीकल के रैंक में (14638412 वाई अब जेसी—774235 एन)	01 जून 2017
राकेश कुमार	(14638349 पी अब जेसी—774258 पी)	01 जून 2017
चन्द्रमल चौडी	(14632045 एफ अब जेसी—774256 के)	03 मई 2017 / 22 अप्रैल 2017
नितुल बरुआ	नायब सूबेदार एम टेक ईलेक्ट्रिक के रैंक में (14642191 पी अब जेसी—774308 पी)	01 जून 2017
गुडापारथि येरन्ना नायडू	(14642875 एल अब जेसी—774343 एक्स)	01 जून 2017
पुरुषोत्तम कुमार पटवा	(14642836 एम अब जेसी—774342 पी)	01 जून 2017
ललित सिंह	(14642090 एफ अब जेसी—774200 एक्स)	03 मई 2017 / 01 मई 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
श्री कृष्ण के टी डेका राजा	नायब सूबेदार वेलडर के रैंक में (14620581 एक्स अब जेसी—774348 डब्ल्यू)	31 मई 2017 / 01 अप्रैल 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
दीपक रावत	नायब सूबेदार अर्मायेन्ट एफ डी के रैंक में (14642126 पी अब जेसी—774334 डब्ल्यू)	01 जून 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
दयानंद लिहोर	नायब सूबेदार एम टेक बी वैहीकल के रैंक में (14638375 डब्ल्यू अब जेसी—774214 एक्स)	01 जून 2017
जितेन्द्र सिंह सेंगर	(14638479 एक्स अब जेसी—774234 एल)	01 जून 2017
सी कृष्णा मूर्ती	(14638339 एल अब जेसी—774255 एफ)	01 जून 2017
अनिसूर रेहमान	(14636954 के अब जेसी—774305 एफ)	02 जून 2017 / 01 जून 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
आनंदजी दुबे	नायब सूबेदार एम टेक ए वी एन (ए एफ) के रैंक में (14657784 वाई अब जेसी—774335 वाई)	01 जून 2017
अजित सिंह	(14660070 डब्ल्यू अब जेसी—774336 एफ)	01 जून 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
बालकृष्णा केति	नायब सूबेदार एम टेक बी वैहीकल के रैंक में (14638282 एफ अब जेसी—774217 एल)	05 जून 2017 / 01 जून 2017
ग्यान चद्र मिश्रा	(14638458 एफ अब जेसी—774259 एक्स)	01 जून 2017
सतीश डी	(14638341 एच अब जेसी—774233 एच)	19 जून 2017 / 01 जून 2017
पनवर कांति लाल उत्तम राव	(14620052 एल अब जेसी—774237 वाई)	09 जून 2017 / 01 जून 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
इरप्पक चिंचानि	नायब सूबेदार ड्राइवर एम टी के रैंक में (14619269 एच अब जेसी—774317 डब्ल्यू)	01 जून 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		

अनुराग शर्मा
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th October 2017

(ARMY BRANCH)

No. 223, dated 8th September 2017—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
TO BE CAPT (ON PROBATION)

CAPT AMIT RAJAN MS-17788Y DOC-04.08.2015

With seniority for pay and promotion from 04.02.2012. This includes 42 months antedate seniority (36 months antedate for PG Degree MD (Pathology) and 06 months for housejob appointment), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SUMEESH BABBAR MS-17800P DOC-04.08.2015

With seniority for pay and promotion from 04.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT BHASKAR JYOTI DEURI MS-18073P DOC-18.08.2015

With seniority for pay and promotion from 18.02.2013. This includes 30 months (24 month antedate seniority for PG Diploma in (Pediatrics) & 06 month for Hospital Appointment), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT MOHIT WADHWA MS-18020W DOC-22.08.2015

With seniority for pay and promotion from 22.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT NAVRATNA MISHRA MS-17836N DOC-10.08.2015

With seniority for pay and promotion from 10.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT DINESH Bhole MS-18084F DOC-11.03.2016

With seniority for pay and promotion from 11.09.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT MOHUL CHANDRA PRASAD MS-18079W DOC-09.03.2016

With seniority for pay and promotion from 09.09.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ALISHA SHARMA MS-18009X DOC-18.08.2015

With seniority for pay and promotion from 18.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SOURABH MISHRA MS-17450N DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT AMANDEEP SINGH GILL MS-18030A DOC-02.07.2015

With seniority for pay and promotion from 02.01.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT GOWRY V R MS-18130L DOC-23.03.2016

With seniority for pay and promotion from 23.09.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SUNEHA MS-18097Y DOC-16.03.2016

With seniority for pay and promotion from 16.09.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SUNIL GABA MS-18209N DOC-02.07.2015

With seniority for pay and promotion from 02.01.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SAKSHI SHARMA MS-18212N DOC-17.07.2015

With seniority for pay and promotion from 17.01.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT AMIT KUMAR SAHU MS-18089A DOC-12.03.2016

With seniority for pay and promotion from 12.09.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT TARANJIT SINGH MS-17506P DOC-31.12.2014

With seniority for pay and promotion from 30.06.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT RAJNI MS-17818L DOC-05.08.2015

With seniority for pay and promotion from 05.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT MADHUSMITA MOHANTY MS-17754L DOC-23.06.2015

With seniority for pay and promotion from 23.12.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT PRASHANT GHATIGEPPA BELLAD MS-17826K DOC-07.08.2015

With seniority for pay and promotion from 07.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT NEETU BALA MS-18205X DOC-14.05.2016

With seniority for pay and promotion from 14.11.2012. This includes 42 months antedate seniority (36 months antedate for PG Degree MD (Social and Preventive Medicine) and 06 months for housejob appointment), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT POORVA SHARMA MS-18095N DOC-15.03.2016

With seniority for pay and promotion from 15.09.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT GULZAR MASHANI MS-18204P DOC-21.08.2015

With seniority for pay and promotion from 21.08.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MD (Ophthalmology) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ANUSREE MAJUMDER MS-18324N DOC-03.03.2016

With seniority for pay and promotion from 03.09.2012. This includes 42 months (36 months antedate for PG Degree MD (Pathology) and 06 months for housejob appointment), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SUMIT SHARMA MS-17184A DOC-06.08.2013

With seniority for pay and promotion from 06.02.2013. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT DHINESH DAVIS MS-17447N DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT BHAVNA VERMA MS-17522M DOC-08.01.2015

With seniority for pay and promotion from 08.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SHERIFF PAUL MS-17442P DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ABHISHEK BHARTI MS-17891K DOC-17.07.2015

With seniority for pay and promotion from 17.07.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MD (Psychiatry) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT BIPLABI BISWA KESHARI MOHANTY MS-18004Y DOC-14.08.2015

With seniority for pay and promotion from 14.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT NEHA SAHAY MS-17909P DOC-02.07.2015

With seniority for pay and promotion from 02.07.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MS (Obst & Gynae) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT PRIYANKA VISHWAKARMA GARG MS-17902L DOC-18.08.2015

With seniority for pay and promotion from 18.08.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MD (Pediatrics) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ANGAD SINGH SODHI MS-17630W DOC-01.01.2015

With seniority for pay and promotion from 01.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT YOGESH KUMAR SHARMA MS-17945A DOC-23.06.2015

With seniority for pay and promotion from 23.12.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT PRIYANKA CHAUDHARY MS-18057X DOC-20.07.2015

With seniority for pay and promotion from 20.01.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT LALITH MEESALA MS-17704A DOC-26.06.2015

With seniority for pay and promotion from 26.06.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MD(Community Medicine) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SAHIL GORKA MS-17761F DOC-01.07.2015

With seniority for pay and promotion from 01.01.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT NEETU BALA	MS-18205X	AMC	14.05.2016
CAPT SHERIFF PAUL	MS-17442P	AMC	01.11.2014
CAPT SOURABH MISHRA	MS-17450N	AMC	01.11.2014
CAPT TARANJIT SINGH	MS-17506P	AMC	31.12.2014
CAPT SANDIPAN DEB SARKAR	MS-17756W	AMC	23.06.2015
CAPT NANDISHWAR RATHORE	MS-18068K	AMC	23.06.2015
CAPT RASULATA SWAIN	MS-18208L	AMC	25.06.2015
CAPT SUNIL GABA	MS-18209N	AMC	02.07.2015
CAPT BHUBANESWAR BAGH	MS-18210H	AMC	11.07.2015
CAPT SANJAY SINGH TO MAR	MS-18211L	AMC	11.07.2015
CAPT SAKSHI SHARMA	MS-18212N	AMC	17.07.2015
CAPT JITENDER PRATAP SINGH	MS-17418Y	AMC	01.11.2014
CAPT SAHIL GORKA	MS-17761F	AMC	01.07.2015
CAPT KUMARAN G	MS-17763M	AMC	04.07.2015
CAPT PREETI RAI	MS-17872Y	AMC	23.06.2015
CAPT YOGESH KUMAR SHARMA	MS-17945A	AMC	23.06.2015
CAPT ALISHA SHARMA	MS-18009X	AMC	18.08.2015
CAPT MOHUL CHANDRA PRASAD	MS-18079W	AMC	09.03.2016
CAPT SUNEHA	MS-18097Y	AMC	16.03.2016
CAPT GOWRY V R	MS-18130L	AMC	23.03.2016
CAPT GULZAR MASHANI	MS-18204P	AMC	21.08.2015
CAPT ANUSREE MAJUMDER	MS-18324N	AMC	03.03.2016
CAPT PRAVEEN M	MS-17552K	AMC	01.11.2014

CAPT SUNANDAN NANDI PURKAYASTHA	MS-17643N	AMC	01.11.2014
CAPT SHANKAR RAJ KUMAR	MS-17791Y	AMC	11.08.2015
CAPT SRIVIJAY MORLA	MS-17817H	AMC	05.08.2015
CAPT ANU SHARMA	MS-18041M	AMC	05.08.2015
CAPT PRAVEEN POLEPALLI	MS-18087P	AMC	11.03.2016
CAPT CH SRIDHAR CHARY	MS-18099K	AMC	17.03.2016
CAPT R MYTHILIKRISHNAN	MS-18216K	AMC	18.08.2015
CAPT GANDLA SWATHI	MS-17863X	AMC	11.08.2015
CAPT KASULA NAGARJUNA	MS-17882H	AMC	30.06.2015
CAPT ABHISHEK BHARTI	MS-17891K	AMC	17.07.2015
CAPT PRIYANKA VISHWAKARMA GARG	MS-17902L	AMC	18.08.2015
CAPT AGNIDIPA DAS	MS-17920N	AMC	07.08.2015
CAPT RUPAL	MS-17986K	AMC	04.08.2015
CAPT BIPLABI BISWA KESHARI MOHANTY	MS-18004Y	AMC	14.08.2015
CAPT AMANDEEP SINGH GILL	MS-18030A	AMC	02.07.2015
CAPT ROBINSON V THOMAS	MS-18042P	AMC	06.08.2015
CAPT RAVITEJ GOLIVE	MS-18050N	AMC	13.10.2015
CAPT ANGAD SINGH SODHI	MS-17630W	AMC	01.01.2015
CAPT SHIVALING	MS-17765X	AMC	15.07.2015
CAPT SOURABH NAMDEO	MS-17839F	AMC	11.08.2015
CAPT MANISH KUMAR	MS-17846X	AMC	14.08.2015
CAPT DATTA SAI SARKAR GOLI	MS-17853N	AMC	18.08.2015
CAPT KOSURU RAJSHAKER	MS-17866L	AMC	18.08.2015
CAPT AKANSHA SRIVASTAVA	MS-17885W	AMC	09.07.2015
CAPT KAUSHALENDRA SINGH	MS-17892M	AMC	17.07.2015
CAPT AKSHAY VADHINAENI	MS-17894X	AMC	18.07.2015
CAPT SOUVIK CHAKRABORTY	MS-17901H	AMC	04.08.2015
CAPT NEHA SAHAY	MS-17909P	AMC	02.07.2015
CAPT MEENAKSHI	MS-17911M	AMC	10.07.2015
CAPT KARTHIK NUNNA	MS-17912P	AMC	14.07.2015
CAPT SIDDARTHA T	MS-17980H	AMC	15.07.2015
CAPT VIKALP JAIN	MS-17983W	AMC	16.07.2015
CAPT ANU JAIN	MS-18022F	AMC	11.09.2015
CAPT ANUPREET KAUR	MS-18052Y	AMC	02.07.2015
CAPT GAUTAM MUKHERJEE	MS-18053F	AMC	02.07.2015
CAPT JAYA MANCHANDA	MS-18065W	AMC	12.09.2015
CAPT NEHA VYAS	MS-17509H	AMC	06.01.2015
CAPT ADARSH GUPTA	MS-17679M	AMC	23.06.2015
CAPT MD KHAJA MOHIUDDIN	MS-17711W	AMC	27.06.2015
CAPT VENKATESH KUMAR LAGUDU	MS-17721A	AMC	02.07.2015
CAPT SIGIN GEORGE	MS-17722H	AMC	02.07.2015

CAPT AISHWARYA D	MS-17753H	AMC	23.06.2015
CAPT HARIKRISHNA BOOTLA	MS-17843K	AMC	13.08.2015
CAPT ABHIMANYU SHARMA	MS-17844M	AMC	13.08.2015
CAPT KARRI RAMESH KUMAR	MS-17851H	AMC	18.08.2015
CAPT SREENU NANDIGAMA	MS-17855Y	AMC	18.08.2015
CAPT SATISH POTUPUREDDI	MS-18111A	AMC	20.03.2016
CAPT VAYALPADU A KUMAR REDDY	MS-18113L	AMC	21.03.2016
CAPT MUDIT UPRETI	MS-18124X	AMC	22.03.2016
CAPT PRABHU S ANGADI	MS-18125A	AMC	22.03.2016
CAPT PITTADA DWARAKANADH	MS-18135K	AMC	23.03.2016
CAPT DRONADULA BALAJI	MS-18136M	AMC	24.03.2016
CAPT SIMRANJEET SINGH	MS-18137P	AMC	24.03.2016
CAPT SHRUTHI ELIZABATH BABU	MS-18233K	AMC	15.03.2016
CAPT KHILLARE AMIT BHASKAR	MS-18241H	AMC	16.03.2016
CAPT PALLAVI GADGE	MS-18261W	AMC	22.03.2016
CAPT VIKRAM KULKARNI	MS-18262Y	AMC	22.03.2016
CAPT RUCHI MISHRA	MS-18320X	AMC	28.06.2016
CAPT ERAM RIYAZ	MS-18088X	AMC	11.03.2016
CAPT N MURALI KRISHNA	MS-18129W	AMC	22.03.2016
CAPT AHMAD ALI MOHAMMAD	MS-18138X	AMC	24.03.2016
CAPT SANDEEP SHARMA	MS-18140P	AMC	24.03.2016
CAPT AKANKSHA TEVATIA	MS-18217M	AMC	02.06.2016
CAPT PATEL CHETANKUMAR RAMESHBHAI	MS-18218P	AMC	30.06.2016
CAPT HIMANSHU SHARMA	MS-18273L	AMC	29.03.2016
CAPT ANUP SINGH	MS-18290L	AMC	10.05.2016
CAPT CHANDAN KUMAR	MS-18291N	AMC	10.05.2016
CAPT JEEVAN MOHAN MESTA	MS-18294F	AMC	12.05.2016
CAPT SAGNIK DATTA MAJUMDAR	MS-18300K	AMC	13.05.2016
CAPT SIDDALINGESH HUGAR	MS-18612A	AMC	15.03.2016
CAPT SAHIL SINGLA	MS-18096W	AMC	16.03.2016
CAPT SHIVARAM PEDAGAMALLA	MS-18103F	AMC	18.03.2016
CAPT SHEKALLA SHIVASPANDAN	MS-18104K	AMC	18.03.2016
CAPT PRADEEP	MS-18126H	AMC	22.03.2016
CAPT MANDHA BHARATH KUMAR	MS-18127L	AMC	22.03.2016
CAPT SUNILKUMAR H	MS-18128N	AMC	22.03.2016
CAPT ARUNKUMAR B	MS-18263F	AMC	22.03.2016
CAPT ROHIT	MS-18283P	AMC	05.05.2016
CAPT RUDRA PRASAD BHOWMICK	MS-18286H	AMC	07.05.2016
CAPT HARIKRISHNAN K A	MS-18293Y	AMC	12.05.2016
CAPT ARPIT ANAND	MS-18299A	AMC	13.05.2016
CAPT DHEERAJ REDDY D	MS-18618F	AMC	21.03.2016

CAPT SUSHANT KUMAR SINGH	MS-18077L	AMC	09.03.2016
CAPT NAIR MANU RISHIKESAN	MS-18091X	AMC	12.03.2016
CAPT LALITA SHARMA	MS-18108A	AMC	19.03.2016
CAPT PARVEEN	MS-18133Y	AMC	23.03.2016
CAPT KIRANA G	MS-18248M	AMC	18.03.2016
CAPT KHOT SANGRAM DILIP	MS-18258W	AMC	22.03.2016
CAPT DARSHAN S CHINCHAKHANDI	MS-18260N	AMC	22.03.2016
CAPT VINEET MANDRAH	MS-18266P	AMC	23.03.2016
CAPT VIVEK SHARMA	MS-18623M	AMC	10.05.2016
CAPT ANKITA PATEL	MS-18083Y	AMC	11.03.2016
CAPT RAZIL AKHTAR	MS-18090P	AMC	12.03.2016
CAPT RANDEEP SINGH	MS-18101W	AMC	18.03.2016
CAPT NEIL ABHAY SHAH	MS-18119M	AMC	22.03.2016
CAPT DILIP SUTHAR	MS-18120F	AMC	22.03.2016
CAPT SURAJ SINHA	MS-18121K	AMC	22.03.2016
CAPT EKTA JAIN	MS-18131N	AMC	23.03.2016
CAPT SAYANTAN PAUL	MS-18132W	AMC	23.03.2016
CAPT SHVETA DHADWAL	MS-18141X	AMC	09.04.2016
CAPT SHAHEEN KHAN BHATI	MS-18220M	AMC	09.03.2016
CAPT NANDINI ARORA	MS-18244W	AMC	17.03.2016
CAPT VIVEK NATH OBEROI	MS-18257N	AMC	22.03.2016
CAPT RUPAM TALUKDAR	MS-17969K	AMC	08.07.2015
CAPT EMALAKOTA SUBAHAN BABU	MS-18215F	AMC	11.08.2015
CAPT BANDANA	MS-18265M	AMC	23.03.2016
CAPT SHYAMAL ROY	MS-18676L	AMC	27.02.2016
CAPT AINDRILA MISHRA	MS-18082W	AMC	11.03.2016
CAPT SATYA PRAKASH	MS-18678W	AMC	10.03.2016
CAPT JAGADISH A	MS-18682Y	AMC	22.03.2016
CAPT ARUN L	MS-18249P	AMC	18.03.2016
CAPT AJAY GHANGAS	MS-18610P	AMC	12.03.2016

To be FLT LT (on probation)

FLT LT DHANVIJAY PALLAVI VITHAL	MS-18201F (AF-34797R)	AMC	12.08.2015
FLT LT RAJAT RANYAL	MS-18322H (AF-35318R)	AMC	02.07.2016
FLT LT GAJIPARA BHARGAV MANHARBHAI	MS-18238H (AF-35112T)	AMC	16.03.2016
FLT LT SHIREEN SHARMA	MS-18256L (AF-35114G)	AMC	22.03.2016
FLT LT ASHISH KUMAR DHIMAN	MS-18287L (AF-35125R)	AMC	10.05.2016
FLT LT ANKIT	MS-18288N (AF-35126T)	AMC	10.05.2016
FLT LT UMMITI CHANDRA SEKHAR	MS-18055M (AF-34748L)	AMC	08.07.2015
FLT LT ARUN MOHAN M V	MS-18197K (AF-34808S)	AMC	19.08.2015
FLT LT AVINASH B K	MS-18213W (AF-34779L)	AMC	01.08.2015
FLT LT B N VASUDEV	MS-18214Y (AF-34780F)	AMC	01.08.2015
FLT LT VIKAS ADIKENAVAR	MS-18192L (AF-34767T)	AMC	30.06.2015

FLT LT NAVJOT SINGH SIDHU MS-17976A(AF-34773K) DOC-14.07.2015

With seniority for pay and promotion from 14.01.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT APROO SHARMA MS-17928A(AF-34811S) DOC-01.10.2015

With seniority for pay and promotion from 01.10.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MD(Pathology) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT VAIBHAV SADIWAL MS-17973M (AF-34774N) DOC-10.07.2015

With seniority for pay and promotion from 10.01.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT DINOY CHANDRAN R MS-17927X(AF-34795H) DOC-12.08.2015

With seniority for pay and promotion from 12.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT NIDHI SINGH MS-17873F (AF-34754B) DOC-23.06.2015

With seniority for pay and promotion from 23.06.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MD(Physiology) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT RAKESH PS MS-17935W(AF-34755G) DOC-23.06.2015

With seniority for pay and promotion from 23.12.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT S P VIKRANT MS-18060X(AF-34786G) DOC-06.08.2015

With seniority for pay and promotion from 06.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT SHEEVA GOSWAMI MS-17149X (AF-32382F) DOC-21.09.2012

With seniority for pay and promotion from 21.09.2010. This includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in (Hospital Administration), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT YADAV CHETAN TANAJI MS-18207H (AF-34790K) DOC-08.08.2015

With seniority for pay and promotion from 08.02.2012. This includes 42 months antedate seniority (36 months antedate for PG Degree MD (Physiology) and 06 months for housejob appointment), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT B N VASUDEV MS-18214Y (AF-34780F) DOC-01.08.2015

With seniority for pay and promotion from 01.08.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MD(Aviation Medicine) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT AVINASH B K MS-18213W(AF-34779L) DOC-01.08.2015

With seniority for pay and promotion from 01.08.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MD(Aviation Medicine) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT NATH AMOL DILEEP MS-18206A (AF-34789S) DOC-08.08.2015

With seniority for pay and promotion from 08.02.2012. This includes 42 months antedate seniority (36 months antedate for PG Degree MD (community Medicine) and 06 months for housejob appointment), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT DIVYA N MS-17209F (AF-33145-H) DOC-17.09.2013

With seniority for pay and promotion from 17.09.2010. This includes 36 months antedate for PG Degree MD(Aviation Medicine), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT PISAL HRISHIKESH KRISHNA MS-17907K (AF-34782-L) DOC-04.08.2015

With seniority for pay and promotion from 04.08.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MD(Hospital Administration) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT POLASH SANNIGRAHI MS-17906F (AF-34781H) DOC-04.08.2015

With seniority for pay and promotion from 04.08.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MD(Aviation Medicine) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT NATH AMOL DILEEP	MS-18206A (AF-34789S)	AMC	08.08.2015
FLT LT YADAV CHETAN TANAJI	MS-18207H (AF-34790K)	AMC	08.08.2015
FLT LT SURAJ GOCHIPATALA	MS-17884N (AF-34752R)	AMC	02.07.2015
FLT LT V NARAYANA PATAMSETTI	MS-17946H (AF-34761S)	AMC	24.06.2015
FLT LT REENA PAL	MS-17926P (AF-34784T)	AMC	04.08.2015
FLT LT M ANAND	MS-17929H (AF-34812A)	AMC	15.10.2015
FLT LT SHUBHRA TIWARI	MS-18196F (AF-34785B)	AMC	04.08.2015
FLT LT SUYASH KUMAR MISHRA	MS-17924K (AF-34776A)	AMC	17.07.2015
FLT LT ANNEM ANVESH	MS-17953Y(AF-34764H)	AMC	25.06.2015
FLT LT K ADITYA SASANK	MS-17992X(AF-34787K)	AMC	06.08.2015
FLT LT NIDHI DUHAN	MS-17932H (AF-34760N)	AMC	23.06.2015
FLT LT SHEEVA GOSWAMI	MS-17149X(AF-32382F)	AMC	21.09.2012
FLT LT KAUSHIK JAISWAL	MS-17768L (AF-34765L)	AMC	23.06.2015
FLT LT VIKAS GARG	MS-17898N (AF-34753T)	AMC	03.07.2015
FLT LT APROO SHARMA	MS-17928A (AF-34811S)	AMC	01.10.2015
FLT LT MONALISHA GANGULY	MS-17956M (AF-34769G)	AMC	26.06.2015
FLT LT SUSHILA SANGANBASAPPA KACHATTI	MS-17959A(AF-34770T)	AMC	30.06.2015
FLT LT AISWARYA M SUKUMAR AN	MS-17998Y (AF-34793A)	AMC	12.08.2015
FLT LT CHANDAN KUMAR YADAV	MS-18011P (AF-34805G)	AMC	18.08.2015
FLT LT RAKESH P S	MS-17935W (AF-34755G)	AMC	23.06.2015
FLT LT ASHISH KUMAR	MS-18010M (AF-34806K)	AMC	18.08.2015
FLT LT KALPANA SINGH CHAUHAN	MS-18014H (AF-34810N)	AMC	23.09.2015
FLT LT G ABHINAVA ROHITH REDDY	MS-18190A (AF-34771B)	AMC	23.06.2015
FLT LT S P VIKRANT	MS-18060X (AF-34786G)	AMC	06.08.2015
FLT LT RASHMI BAJANNAVAR	MS-17954F (AF-34763F)	AMC	26.06.2015

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
To be LT (on probation)

LT AKHIL KP	MS-17662Y	AMC	24.08.2015
LT RAVINDER ANJNA	MS-17664K	AMC	24.08.2015
LT AKSHAT K AGGARWAL	MS-18170M	AMC	31.03.2016
LT AKSHAY KOTHARI	MS-18179F	AMC	31.03.2016
LT SHREYA SRIVASTAVA	MS-18160H	AMC	31.03.2016
LT VIVEK PAWAH	MS-18172X	AMC	31.03.2016
LT UTTAM KUMAR MISHRA	MS-18181Y	AMC	31.03.2016
LT KAPIL KUMAR SHARMA	MS-18184M	AMC	31.03.2016
LT SHUBHAM VARSHNEY	MS-18163W	AMC	31.03.2016
LT ANURAG ROY	MS-18164Y	AMC	31.03.2016
LT AKSHAY RANA	MS-18169X	AMC	31.03.2016
LT KAPIL PATSARIYA	MS-18171P	AMC	31.03.2016
LT MUHAMMAD AASIM SHAMIM	MS-18174H	AMC	31.03.2016
LT SWEETY RANI	MS-18175L	AMC	31.03.2016
LT ABHISHEK SAINI	MS-18180W	AMC	31.03.2016
LT VYSAK KRISHNAN	MS-18182F	AMC	31.03.2016
LT AYUSH DWIVEDI	MS-18183K	AMC	31.03.2016
LT SUMAN SOURAV	MS-18186X	AMC	31.03.2016
LT HARIKRISHNAN G	MS-18187A	AMC	31.03.2016
LT MUNEER SUBAIR	MS-18189L	AMC	31.03.2016
LT JOSHAN THOMAS	MS-18148F	AMC	31.03.2016
LT AMAN JAISWAL	MS-18149K	AMC	31.03.2016
LT MAYANK	MS-18151F	AMC	31.03.2016
LT ABHISHEK ARAVIND	MS-18153M	AMC	31.03.2016
LT DEVI KRISHNA A V	MS-18154P	AMC	31.03.2016
LT HARSHIT KUMAR	MS-18161L	AMC	31.03.2016
LT PAWAN KUMAR KAJAL	MS-18167M	AMC	31.03.2016
LT SURAJ S	MS-18173A	AMC	31.03.2016
LT AMTESHWAR SINGH BUTTAR	MS-18176N	AMC	31.03.2016
LT YASHANK KUMAR KESHARI	MS-18177W	AMC	31.03.2016
LT ABHISHEK KUMAR	MS-18178Y	AMC	31.03.2016
LT SARATH KUMAR KV	MS-18188H	AMC	31.03.2016
LT SAURABH KUMAR MISHRA	MS-18144L	AMC	31.03.2016
LT ANIMESH KUMAR	MS-18145N	AMC	31.03.2016
LT SURAJ GAUTAM DUCHE	MS-18146W	AMC	31.03.2016
LT RAVI KUMAR	MS-18147Y	AMC	31.03.2016
LT PRERNAA TYAGI	MS-18150Y	AMC	31.03.2016

LT POOJA SRIVASTAVA	MS-18155X	AMC	31.03.2016
LT I S S SIRISHA	MS-18156A	AMC	31.03.2016
LT SUNEET JOHN JOSEPH	MS-18157H	AMC	31.03.2016
LT GEETIKA RANI JADON	MS-18158L	AMC	31.03.2016
LT TANUSHREE RATURI	MS-18159N	AMC	31.03.2016

The President is pleased to make the following appointment under AI 40/73 with effect from 08 Apr 2016, in AMC/SSC (Non Tech) officers :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

AS LIEUTENANT WEF 08 APR 2016 (ON PROBATION)

Rank	Name	Old number and allotted new personal number		Date of Commission
		Old Army No	New Pers No	
Nb Sub/XRA	Rabindra Nath Mishra	JC-700214H	NTS-17644-W	08 Apr 2016
NK/PTA	Koli Yogesh Ashok	15422093A	NTS-17645-Y	08 Apr 2016
Nk/Lab Asst	Konhoujam Bimol Singh	15427786F	NTS-17646-F	08 Apr 2016
Nk/DORA	Sanjeev Kumar	15431690W	NTS-17647-K	08 Apr 2016
Nk/PNA	Irappa Yadavannavar	15422972N	NTS-17648-M	08 Apr 2016

The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended:—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(To be SURG LT on probation)

SURG LT S KRISHNA PRASAD	MS-18015L (76333-H)	AMC	30.09.2015
--------------------------	---------------------	-----	------------

SURG LT JOGESH AHUJA (MS-18012X)(76326T) (EX MS-14191L) AMC, DOC 08.09.2015 WITH SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION WITH EFFECT FROM 08.09.2007. THIS INCLUDES TOTAL 08 YEARS SERVICE (05 YEARS FOR PREVIOUS FULL PAY COMMISSION SERVICE AND 03 YEARS FOR PG DEGREE MD ANAESTHESIA), WHICH WILL NOT COUNT FOR GRATUITY. SENIORITY IN THE RANK OF SURG LT WILL RECKONS WITH EFFECT FROM 08.09.2007.

(MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION PUBLICATION INsofar AS IT RELATES TO THE ABOVE NAMED OFFICER IS HEREBY CANCELLED).

SURG LT VAIDEHI VIRAL SHAH MS-17344P (76248R) DOC-19.10.2013

With seniority for pay and promotion from 19.10.2011. This includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in (Gynaecology and Obstetrics), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT ATUL VIJ MS-17977H (76313N) DOC-15.07.2015

With seniority for pay and promotion from 15.01.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT PRAVEEN MG MS-18198M (76329-Z)DOC-19.08.2015

With seniority for pay and promotion from 19.02.2012. This includes 42 months antedate seniority (06 months for house job and 36 months for PG Degree MD Aviation Medicine) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG B VINOD MS-17968F (76325R) DOC-08.07.2015

With seniority for pay and promotion from 08.01.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended:—

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
(To be FG OFFR on probation)

FG OFFR ANKIT RAO	MS-17659Y (AF-34802R)	AMC	24.08.2015
FG OFFR AKHIL MOHANDAS	MS-17663F (AF-34803)	AMC	24.08.2015

B SRIDHAR
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 224, dated 11th Sep tember 2017—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
MAJOR TO LT COL

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16697H	Major	Rakhal Chandra Rout	02 Apr 2017
NTR-16778H	Major	Rakesh Kumar	02 Apr 2017
NTR-16702H	Major	Sreekumar KS	02 Apr 2017
NTR-16804Y	Major	Bir Singh	02 Apr 2017
NTR-16698L	Major	Jamuna Prasad	02 Apr 2017
NTR-16699N	Major	Jaiprakash Singh	02 Apr 2017
NTR-16700X	Major	Jai Prakash Pandey	02 Apr 2017
NTR-16701A	Major	Raj Kumar E	02 Apr 2017
NTR-16703L	Major	Manoj KV	02 Apr 2017
NTR-16704N	Major	Virender Kumar	02 Apr 2017
NTR-16705W	Major	Shaik Jameer Ahmed	02 Apr 2017
NTR-16706Y	Major	S Ramesh	02 Apr 2017
NTR-16776X	Major	Jayakrishnan M	02 Apr 2017
NTR-16777A	Major	Harpreet Singh	02 Apr 2017
NTR-16779L	Major	Ravinder Kumar Sharma	02 Apr 2017
NTR-16780A	Major	A Saravanan	02 Apr 2017
NTR-16781H	Major	Madhusoodhanan P	02 Apr 2017
NTR-16784W	Major	Rajender Singh	02 Apr 2017
NTR-16805F	Major	Pravin Singh	02 Apr 2017
NTR-16807M	Major	Murali Das R	02 Apr 2017
NTR-16809X	Major	N Oken Singh	02 Apr 2017
NTR-16845H	Major	Om Prakash Bishnoi	02 Apr 2017
NTR-16862H	Major	Sri Manoj Kumar Agnihotry	02 Apr 2017

SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
MAJOR TO LT COL

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTS-17501W	Major	K S Arun	02 Apr 2017

ARMY MEDICAL CORPS
MAJ TO LT COL

MS-15316-K	Maj	Naveen Kumar	22-03-2017
MS-15332-F	Maj	Mukesh Kumar	22-03-2017
MS-15920-P	Maj	USS Varaha Mehar	16-09-2016
MS-15368-A	Maj	H Vanlalhrui	22-03-2017
MS-14965-H	Maj	Ujjawal Pratap	12-04-2016
MS-15109-X	Maj	Bijoya Kumar Mallick	20-01-2017
MS-15198-F	Maj	Amit Kumar Rai	20-01-2017
MS-15210-X	Maj	Mohammed Abdul Nazer A	20-01-2017
MS-15128-H	Maj	Tapas Kumar Mandal	16-12-2016
MS-14942-F	Maj	Pramod Solanki	30-12-2016
MS-15108-P	Maj	Davender Singh	20-01-2017
MS-15225-A	Maj	Bhanu Kumar Sharma	20-01-2017
MS-15205-M	Maj	Rajendra Pratap Singh	20-01-2017
MS-15216-Y	Maj	Ravi Shankar Lal	20-01-2017
MS-15222-M	Maj	Pankaj Kumar Goyal	20-01-2017
MS-15206-P	Maj	Sanjeev Kumar Katara	20-01-2017
MS-15399-A	Maj	Gopal Krishna Yadav	20-01-2017
MS-14689-L	Maj	Geetha Ramadurai	08.06.2014
MS-14987-F	Maj	Siddhartha Prasad KM	12 Apr 2016
MS-15076-X	Maj	Patil Pradeep Maruti	17 May 2016
MS-15123-K	Maj	Purnima Sharma	16 Dec 2016
MS-14922-N	Maj	Sumit Kumar Agarwal	27-12-2016
MS-14940-W	Maj	Vijay Kumar Pawar	27-12-2016
MS-15219-M	Maj	Lakhan Shital Santu	20-01-2017
MS-15107-M	Maj	Jagjit Singh Puri	20-01-2017
MS-16247-L	Maj	Madhurya Bezbaruah	18-02-2017
MS-14936-N	Maj	Abhishek Kumar Sharma	27-12-2016

SQN LDR TO WG CDR

MS-15083N (AF-28378F)	SQN LDR	K Shankar Reddy	17-05-2016
MS-15178N (AF-28393S)	SQN LDR	Pijus Ghorai	16-06-2016

SURG LT CDR TO SURG CDR

MS-15158-A (75899Y)	Surg Lt Cdr	Rohit Varma	16-12-2016
MS-14866-A (75856-Z)	Surg Lt Cdr	Shishir Gupta	11-08-2016
MS-15187-P (75908-T)	Surg Lt Cdr	Sumit Lakhanpal	23-12-2016

SURG LT TO SURG LT CDR

MS-16979-F (76168-H)	Surg Lt	Anshul Vaishist	21-09-2016
MS-17003-K (76179-H)	Surg Lt	Naveen Kumar R	06-11-2016
MS-17030-N (76189-F)	Surg Lt	Praveen Kumar Nalla	29-12-2016
MS-17048-K (76182-R)	Surg Lt	Muthu Kamal VKB	29-12-2016
MS-17063-Y (76206-W)	Surg Lt	Yogesh Yadav	12-02-2017
MS-17055-A (76198-A)	Surg Lt	Vijaya Kumar Varada	12-02-2017
MS-17060-L (76196-Y)	Surg Lt	Pinninti Anil	12-02-2017
MS-17062-W (76197-Z)	Surg Lt	SN Ravi Kumar	12-02-2017
MS-16895-N (76148-N)	Surg Lt	Ambika Nautiyal	23-02-2017
MS-18194-W (76275-A)	Surg Lt	Srinivas R	01-05-2016
MS-17160-W (76231-A)	Surg Lt	Ajith Mohan	06-02-2017
MS-17020-K (76180-K)	Surg Lt	Sachin Bharadhwaj R	17-11-2016
MS-17018M (76178-F)	Surg Lt	Sannidhi Modha Venkatesh	06-11-2016
MS-17899W (76317-Y)	Surg Lt	Amrita Datla	04 Mar 2013
MS-17040X (76184W)	Surg Lt	Narasimharao Ari	29-06-2016
MS-16985-P (76161-T)	Surg Lt	Abijith B Krishna	21-09-2016
MS-17002-F (76173-W)	Surg Lt	Abhishek Shet	06-11-2016
MS-17053-P (76204-R)	Surg Lt	Arnab Sengupta	12-02-2017
MS-16901-W (76147-K)	Surg Lt	Renu M	23-02-2017
MS-17015-Y(76191-K)	Surg Lt	Dhanvanth DS	06-11-2016
MS-17019P (76175Z)	Surg Lt	Pawar Yogita Ramrao	06-05-2016
MS-17034-K (76185-Y)	Surg Lt	Ajay Kumaramayaka K	29-12-2016
MS-16800-H (76118-W)	Surg Lt	Gautam Girish	07-08-2016
MS-17043-L (76186-Z)	Surg Lt	Rahul Vatsgotra	29-12-2016
MS-17024-A (76181-N)	Surg Lt	Joshi Prasanna Pramod	17-11-2016
MS-17525-A(76278-H)	Surg Lt	Shejale Naveen Ashok	01-11-2015
MS-17937-F(76310-F)	Surg Lt	Sunish Zachariah	23-06-2016
MS-17028-W (76188-B)	Surg Lt	Nethi Kranthi Kumar	29-12-2016

FLT LT TO SQN LDR

Pers No	Rank	Name	Date of prom
MS-17656L (AF-34397-G)	Flt Lt	Akriti Kashyap	06-06-2016
MS-16941X (AF-32371R)	Flt Lt	Sanika CS	02-05-2016
MS-16962N (AF-32384L)	Flt Lt	Saurabh Kushwaha	21-09-2016
MS-17411P (AF-34067H)	Flt Lt	Pawan Kumar Chirivela	01-11-2015
MS-17469M (AF-34088B)	Flt Lt	Afser Khanum SM	10-07-2015
MS-16796L (AF-31409F)	FLT LT	S Balaji	26 Aug 2012
MS-16518X(AF-30898K)	Sqn Ldr	Vikas Dutt Kandpal	15 Aug 13
MS-16950Y (AF-32374G)	Flt Lt	Vijay S	04 Sep 2013
MS-16587N (AF-31078K)	SQN LDR	Nilopher Siddique	15-06-2014
MS-16627K (AF-31082N)	SQN LDR	Hemakumar Yelamanchi	15-06-2014

Pers No	Rank	Name	Date of prom
MS-16712M (AF-31095K)	SQN LDR	Tripta Chaudhary	17-06-2014
MS-16732A (AF-31097S)	SQN LDR	Faiz Ali Mohammed	06-07-2014
MS-16956A (AF-32381A)	SQN LDR	Rudrika Chandra	21-09-2013
MS-17119A (AF-32383H)	SQN LDR	Vikas Sharma	21-09-2014
MS-16829L (AF-32050T)	Flt Lt	Pradeesh A	27-09-2015
MS-16881N (AF-32063R)	Flt Lt	Anant Oberoi	17.07.2015
MS-16884F (AF-32062L)	Flt Lt	Yadav Sagar Shyamlal	17 Jul 2015
MS-16890P (AF-32060F)	Flt Lt	Arjun AP	17-01-2016
MS-16888X (AF-32061H)	Flt Lt	Rohan Rajan	17-01-2016
MS-16938X (AF-32067K)	Flt Lt	Darshan Dev	16-03-2016
MS-15634N (AF-29417F)	Flt Lt	More Harshal Panjabrao	06.09.2011
MS-16873P (AF-32058H)	FLT LT	Juhi Arora	22-05-2015
MS-17238W (AF-33146L)	FLT LT	Sneha Dinakar	17-09-2014
MS-17412X (AF-34068L)	Flt Lt	Teenu Singh	01-11-2015

FLT LT ANURADHA (MS-17280-P (AF) 33675-A) AMC, DOC 11.02.2014 WITH SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION WITH EFFECT FROM 11.02.2006. THIS INCLUDE TOTAL 08 YEARS SERVICE (05 YR FOR PREVIOUS FULL PAY COMMISSION SERVICE AND 03 YRS FOR DNB (TUBERCULOSIS & RESPIRATORY DISEASES/PULMONARY MEDICINE) WHICH WILL NOT COUNT FOR GRATUITY. SENIORITY IN THE RANK OF SQN LDR WILL RECKONS WITH EFFECT FROM 11.02.2010

THE OFFICER HAS BEEN GRANTED RANK OF SQN LDR WITH EFFECT FROM DATE OF COMMISSION i.e. 11.02.2014.

PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
CAPT TO MAJOR

Pers No.	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16855M	Capt	Deshmukh Suraj Appasaheb	23 Apr 2017
NTR-16856P	Capt	Muhammed Shafi PA	23 Apr 2017
NTR-16858A	Capt	Jitender	23 Apr 2017
NTR-16859 H	Capt	Kawade Akash Anil	23 Apr 2017
NTR-16860X	Capt	Rakesh Dalal	23 Apr 2017
NTR-16902Y	Capt	Bibhuti Kumar Sahoo	23 Apr 2017
NTR-16904 K	Capt	Anoop Singh Bhadoriy	23 Apr 2017
NTR-16891X	Capt	Sanjay Singh Raghav	07 Apr 2016

The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
CAPT TO MAJOR

Pers No.	Rank	Name	Date of Promotion
NTS-17588H	Capt	Sree Kumar S	23 Apr 2017
NTS-17589L	Capt	Ashok Raj M	23 Apr 2017
NTS-17590A	Capt	Rajeev Dhami	23 Apr 2017
NTS-17591H	Capt	Sovit Sharma	23 Apr 2017

NTS-17593N	Capt	Jasbir Singh	23 Apr 2017
NTS-17594W	Capt	Kunal Das	23 Apr 2017
NTS-17596F	Capt	Gurvinder Singh	23 Apr 2017
NTS-17598M	Capt	Navneet Kumar	23 Apr 2017
NTS-17601F	Capt	Pradeep Kumar	23 Apr 2017

ARMY MEDICAL CORPS

CAPT TO MAJ

MS-16911-A	Capt	Vipin Kumar Prajapati	23-02-2017
MS-16940-P	Capt	Nidhi Rathi	16-03-2016
MS-17059-W	Capt	Atul Khullar	12-08-2016
MS-17200-M	Capt	Bhagyalekshmi S	06-02-2017
MS-16897-Y	Capt	Arunjeet KK	23-02-2017
MS-16898-F	Capt	Mandeep Kaur	23-02-2017
MS-16928-N	Capt	Vigneshwaran M	23-02-2017
MS-16896-W	Capt	Arun Parashar	23-02-2017
MS-17138-L	Capt	Manveer Singh	06-02-2017
MS-16902-Y	Capt	Shweta Bhardwaj	23-02-2017
MS-16913-L	Capt	Deepika Chaudhary	23-02-2017
MS-17166-X	Capt	Sandeep Dhaka	06-02-2017
MS-16915-W	Capt	Sarvamitra Pathak	23-02-2017
MS-17054-X	Capt	Abhinandan Rampal	12-02-2017
MS-16953-M	Capt	Ashish Kumar Goyal	21-09-2013
MS-17033-F	Capt	Tanveer Ahmed	29-12-2016
MS-17044-N	Capt	Pawan Kumar	29-12-2016
MS-17007-A	Capt	Nimesh Kumar Tiwari	06-11-2016
MS-17014-W	Capt	Shree Kant Dadheech	06-11-2016
MS-18049-Y	Capt	Anupam Sharma	29-09-2016
MS-17449-Y	Capt	Manoj Raje	01-11-2016
MS-17701-M	Capt	Reetu Kalra	25-06-2016
MS-17740-L	Capt	Diwate Sunil Umakant	12-02-2016
MS-16642-Y	Capt	Supeeti Gupta	15-06-2014
MS-16989-L	Capt	Ravi Sehrawat	21-09-2016
MS-17531-N	Capt	Ajay Kumar	01-05-2015
MS-17931-A	Capt	Ajay Pandita	23-06-2016
MS-17011-H	Capt	Deepti Singh	06-11-2016
MS-16552-X	Capt	Deepak Kumar Jha	10-02-2015
MS-16926-H	Capt	Akash Kumar Mishra	23-02-2017
MS-17069-A	Capt	Y Hanock Devadoss	16-03-2017
MS-17891-K	Capt	Abhishek Bharti	17 Jul 2016
MS-17212-F	Capt	Ashish Rapria	19 Apr 2017
MS-17378-H	Capt	Arka Adhvaryu	19 Apr 2017
MS-16469-A	Capt	Mahamuni Dwarkadas Narayan Rao	08-01-2014
MS-16916-Y	Capt	Ayush Chaudhary	23-02-2017
MS-16912-H	Capt	Varun Kumar	23-02-2017
MS-17471-K	Capt	Hemant Singh Chahar	10-01-2016
MS-17253-L	Capt	Deepak Raj Bhatt	19 Apr 2017
MS-17902-L	Capt	Priyanka Vishwakarma Garg	18 Aug 2016

MS-17909-P	Capt	Neha Sahay	02 Jul 2016
MS-16921-K	Capt	Vivek Yadav	23-02-2017
MS-15983-X	Capt	Saurabh Sharma	11-02-2014
MS-17210-W	Capt	Jayant Rastogi	19-04-2017
MS-16908-A	Capt	Anargh V	23-02-2017
MS-16922-M	Capt	Abhinav Bhardwaj	23-02-2017
MS-17057-L	Capt	Kumar Adarsh	12-02-2017
MS-17227-K	Capt	Shireen Deepthi S	19-04-2017
MS-17252-H	Capt	Ranajoy Dutta	19-04-2017
MS-17377-A	Capt	A Karthik	19-04-2017
MS-18204-P	Capt	Gulzar Mashani	21-08-2016
MS-18205-X	Capt	Neetu Bala	14-11-2016
MS-16849-Y	Capt	Anil Kumar	29-09-2015
MS-17067-P	Capt	Dibendu Ghosh	16-09-2016
MS-17470-F	Capt	Nishu Bala	10-01-2016
MS-17982-N	Capt	Leena Singhal	16-07-2016
MS-17065-K	Capt	Varun Kumar	12-08-2016
MS-16973-A	Capt	Pawar Ashok Bhagwan	21-09-2016
MS-17443-X	Capt	Manish Suresh Goyal	01-11-2015
MS-17674-N	Capt	Neha Suman	23-06-2016
MS-16556-N	Capt	Vishal Gupta	10-02-2015
MS-17644-W	Capt	Yugank Rai	01-11-2016
MS-16783-N	Capt	Shashank Kumar Singh	26-02-2016
MS-17399-Y	Capt	Rathod Nitin Vithal	01-11-2016
MS-17037-X	Capt	Amit Chhikara	29-12-2016
MS-17199-H	Capt	Vikas Yadav	06-02-2017
MS-16668-N	Capt	Kuldeep Kumar Sharma	15-06-2014
MS-16917-F	Capt	Irfan Khan	23-02-2017
MS-16919-M	Capt	Tanmay Mohapatra	23-02-2017
MS-16932-W	Capt	Priyesh Pandey	23-02-2017
MS-16793-X	Capt	Praveen Jayarajan	26-02-2016
MS-16914-N	Capt	Akhil KR	23-02-2017
MS-16923-P	Capt	Rupesh	23-02-2017
MS-16925-A	Capt	Vishnu RL	23-02-2017
MS-16930-L	Capt	Anirudh	23-02-2017
MS-16929-W	Capt	Brijesh Kumar Pandey	23-02-2017
MS-16061-F	Capt	Ajay Kumar	26-02-2013
MS-15737-M	Capt	Jaiswal Swapnil Rajendra	25-04-2012
MS-16544-Y	Capt	Sandeep Dubey	10-02-2015
MS-17734-X	Capt	Manvendra Singh Rawat	16-01-2016
MS-17732-M	Capt	Prashant Jha	15-07-2016
MS-17023-X	Capt	K Subhash	17-11-2016
MS-16972-X	Capt	Vikas Kumar	21-03-2016
MS-17045-W	Capt	Ashish Gupta	29-12-2016
MS-17739-W	Capt	Ashish Jain	05-08-2016
MS-17052-M	Capt	Umesh Kumar Singh	29-12-2016
MS-17050-F	Capt	Smriti Gupta	29-12-2016
MS-17905-Y	Capt	Soumita Kar	23-12-2015

PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
LT TO CAPT

Pers No.	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16893-H	Lt	Samir Chhetri	09 Apr 2016

CAPT ANOOP SINGH BHADORIY (NTS-17587A NOW NTR-16904K) – 23 APR 2013

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 May 2014 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

CAPT BIKRAM (NTS-17611L NOW NTR-16905L) – 10 APR 2014

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 09 May 2015 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

CAPT SUJESH P(NTS-17606A NOW NTR-16906P) – 10 APR 2014

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 09 May 2015 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

CAPT VINEETH K (NTS-17597K NOW NTR-16907K) – 23 APR 2013

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 May 2014 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS
TO BE CAPT

MS-17592-L	Capt	Tony E Joseph	17 Feb 2016
MS-17312-M	Capt	Prasad Jayaram	03-03-2015

PMRC No. 2015/09/4739 issued by Maharashtra Medical Council, Mumbai

MS-17662-Y	Capt	Akhil KP	26-07-2016
------------	------	----------	------------

PMRC No. DMC/R/15773 dated 12 Sep 2016 issued by Delhi Medical Council.

Pers No	Rank	Name	Dt of prom
MS-17337-Y	Capt	Arjun	03-03-2015
MS-17606-A	Capt	Anil Kalotra	17-02-2016
MS-17298-L	Capt	Divya Kochhar	03-03-2015
MS-17328X	Capt	Nikhil Kumar	03-03-2015
MS-17382-L	Capt	Mahesh Kumar Dhaka	07 Aug 2015

PMRC No. DMC/R/16328 dated 17 Jan 2017 issued by Delhi Medical Council.

MS-17579-F	Capt	Prerna Galhotra	17-02-2016
MS-17332-A	Capt	Aditya Kunwar	03-03-2015
MS-17612-N	Capt	Sarosh Abdullah	21-03-2016
MS-17622-X	Capt	Ajay Kumar Yadav	17-02-2016
MS-17125-N	Capt	Mohammed Jibrán Khan	24-08-2014

TO BE FLT LT

MS-17129K (AF-33149A)	Flt Lt	Althamus	24 Aug 2014
MS-17120P (AF-33148T)	Flt Lt	Umesh Kumar Mishra	24-08-2014
MS-17595Y (AF-34391F)	Flt Lt	Ayush Mathur	17-02-2016
MS-17581Y (AF-34099L)	Flt Lt	Aadil Nishat	17-02-2016

MS-17596F (AF-34392H)	Flt Lt	A Mar Prakash Ahirwar	17-02-2016
MS-17593N (AF-34389H)	Flt Lt	Manish Kumar Shukla	17-02-2016
MS-17087H(AF-32737F)	Flt Lt	Gourang Paliwal	01.03.2014
MS-17300X (AF-33681L)	Flt Lt	Ritam Bhattacharya	03.03. 2015

SURG SUB LT TO SURG LT

MS-17586X (76305W)	Surg Sub Lt	Nikhil P	17-02-2016
--------------------	-------------	----------	------------

B SRIDHAR
Brigadier
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 225, dated 12th September 2017—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 18 Nov 2015 and to grant him Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 10/2001 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

TO BE LT

LT VINEETH K (NTS-17597K NOW NTR-16907X) – 23 APR 2011

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 21 Apr 2012 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

LT BIKRAM (NTS-17611L NOW NTR-16905M) – 10 APR 2012

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 19 Jan 2013 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

LT SUJESH P (NTS-17606A NOW NTR-16906P) – 10 APR 2012

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 19 Jan 2013 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

LT ANOOP SINGH BHADORIY (NTS-17587A NOW NTR-16904K) – 23 APR 2011

(Seniority for pay only will reckon with effect from 23 Apr 2009)

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 21 Apr 2012 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

B SRIDHAR
Brigadier
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 226, dated 13th September 2017—The President is pleased to permit the undermentioned officer to release from Army Service on attaining the age of superannuation :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Pers No.	Rank	Name	Date of Birth	Date of Release
NTS-17480-L	Maj	Rayniel Dennis Thangkhiew	21 Sep 1961	30 Sep 2016 (AN)

B SRIDHAR
Brigadier
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

CORRIGENDA

No. 227, dated 14th September 2017—The President is pleased to make the following amendment :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

THE AIR FORCE NUMBER IN RESPECT OF MS-17412X FLT LT TEENU SINGH (AF-34068L) PUBLISHED IN GAZETTE DATED 17 OCTOBER 15 IS AMENDED AS FOLLOWS :—

FOR : 32068N

READ : 34068L

THE AIR FORCE NUMBER IN RESPECT OF MS-16960H FLT LT DEEKSHA KATOCH (AF-32380S) PUBLISHED IN GAZETTE DATED 30 AUG 14 IS AMENDED AS FOLLOWS :—

FOR : AF-32380F

READ : AF-32380S

THE DATE OF SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION, CONSEQUENT TO GRANT OF ANTE DATE SENIORITY, IN RESPECT OF MS-16667L (AF-31079N) FLT LT DORLE SHEKHAR LESRAM PUBLISHED IN GOVT OF INDIA GAZETTE DATED 17 OCT 2015 IS AMENDED AS FOLLOWS :—

FOR : 15.01.2010

READ : 15.12.2009

The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(TO BE FLT LT ON PROBATION)

CORRIGENDUM

THE DATE OF SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION, CONSEQUENT TO GRANT OF ANTE DATE SENIORITY, IN RESPECT OF MS-17280P (AF-33675A) (EX MS-14140X) FLT LT ANURADHA (DOC: 11.02.2014) IS AMENDED AS FOLLOWS :—

FOR—WITH SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION WITH EFFECT FROM 11.02.2007. THIS INCLUDES TOTAL 07 YEARS SERVICE (05 YEARS FOR PREVIOUS FULL PAY COMMISSION SERVICE AND 02 YEARS FOR PG DIPLOMA IN TUBERCULOUS & CHEST DISEASES AND DNB (TUBERCULOSIS & RESPIRATORY DISEASES/PULMONARY MEDICINE), WHICH WILL NOT COUNT FOR GRATUITY. SENIORITY IN THE RANK OF FLT LT WILL RECKONS WITH EFFECT FROM 11.02.2007.

READ—WITH SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION WITH EFFECT FROM 11.02.2006. THIS INCLUDES TOTAL 08 YEARS SERVICE (05 YEARS FOR PREVIOUS FULL PAY COMMISSION SERVICE AND 03 YEARS FOR DNB (TUBERCULOSIS & RESPIRATORY DISEASES/PULMONARY MEDICINE), WHICH WILL NOT COUNT FOR GRATUITY. SENIORITY IN THE RANK OF FLT LT WILL RECKONS WITH EFFECT FROM 11.02.2006.

(MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION PUBLICATION INSOFAR AS IT RELATES TO THE ABOVE NAMED OFFICER IS HEREBY CANCELLED).

B SRIDHAR
Brigadier
Dy DGAFMS (HR)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 228, dated 15th September 2017—The President is pleased to make the appointment of the undermentioned individuals as temporary Scientists 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a

period of two years with effect from the date shown against their name in the Pay Scale of ₹ 15600—39100/- (Pay Band-3) + Grade Pay ₹ 5400/- :—

PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
2014AB1001	Shri Akash Manghnani	ADE, Bengaluru	01.08.2014
2014AB1038	Shri Manjeet Kumar Yadav	DARE, Bengaluru	01.08.2014
2015AB1096	Shri Nishad P. S.	HEMRL, Pune	14.12.2015
2014AB1025	Ms. Saba Suhail	JCB, Delhi	01.08.2014
2015AB1075	Shri Koustuv Garai	LRDE, Bengaluru	29.12.2015
2008CK1104	Shri Vijaya Krishna	NSTL, Visakhapatnam	25.01.2016
2014AB1007	Shri Narendra Meena	SAG, Delhi	01.08.2014

The President is pleased to make the appointment of the undermentioned individual as temporary Scientist 'C' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of one year with effect from the date shown against her name in the Pay Scale of ₹ 15,600—39,100/- (Pay Band-3) + Grade Pay ₹ 6,600/- :—

PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
2015AC1008	Ms. Kumkum Uniyal	Ship Building Centre, Naval Base Post, Visakhapatnam	08.08.2015

NISHI SRIVASTAVA
Addl. Director/Pers (DRDS-II)

No. 229, dated 18th September 2017—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
MAJ TO LT COL

PERS NO.	NAME	ARMS	DATE OF PROMOTION
IC-55658	Meetendra Kumar	Arty	24 Oct 16
IC-57290	AM Sharma	Arty	24 Oct 16
IC-59315	Amarjeet C	ASC	24 Oct 16
IC-61100	Pradeep KM	EME	24 Oct 16
IC-61895	SK Saroj	Inf	24 Oct 16
IC-61948	Pradeep Singh	AC	24 Oct 16
IC-62207	Sudhir Gopi	Int	24 Oct 16
IC-62333	V Subramanian	Inf	24 Oct 16
IC-62385	Deepak Kumar	Inf	24 Oct 16
IC-62697	AD Kumar	Engrs	24 Oct 16
IC-62885	Inderjit Singh	Engrs	24 Oct 16
IC-63099	A Zachariah	Int	24 Oct 16
IC-63452	Ahindra Dey	AOC	13 Dec 16
IC-63550	GS Rawat	EME	13 Dec 16
IC-63574	SS Sharma	Inf	13 Dec 16
IC-63607	Navneet Singh	Inf	13 Dec 16
IC-63627	RS Bhadauria	Inf	13 Dec 16
IC-63671	Rakesh Kumar	EME	13 Dec 16
IC-63676	AS Maurya	Sigs	13 Dec 16
IC-63716	Rahul Juyal	Sigs	13 Dec 16
IC-63728	SPS Chauhan	AEC	13 Dec 16
IC-63751	Ajay Kumar	Int	24 Oct 16

IC-64380	JS Makkarh	Int	24 Oct 16
IC-64793	Divya Kumar	EME	24 Oct 16
IC-64808	Pushpen Chandra	Engrs	24 Oct 16
IC-65162	Abhishek Sharma	Arty	24 Oct 16
IC-65234	AM Singh	AC	24 Oct 16
IC-65279	Ajay Kumar	Inf	24 Oct 16
IC-65408	G Rajeev	Inf	24 Oct 16
IC-65603	MK Joshi	ASC	24 Oct 16
IC-65688	R Bakshi	Inf	24 Oct 16
IC-65841	K Singh	ASC	08 Nov 16
IC-65855	S Kaushal	Engrs	08 Nov 16
IC-65857	S Mehta	Arty	08 Nov 16
IC-65862	A Sharma	Engrs	08 Nov 16
IC-66167	Mahesh BA	Engrs	24 Oct 16
IC-66347	Amit Kumar	Sigs	24 Oct 16
IC-66362	KP Charudatta	Engrs	24 Oct 16
IC-66507	Suraj Sinha	Sigs	24 Oct 16
IC-66511	Pankaj Verma	Sigs	24 Oct 16
IC-66515	VK Phogat	EME	24 Oct 16
IC-66520	Deepak Verma	EME	24 Oct 16
IC-67365	Pramod Mehta	Sigs	24 Oct 16
IC-67367	P Vasudevan A	Engrs	24 Oct 16
IC-67864	Prayas Pandey	AC	14 Dec 16
IC-67868	S Chakrabarty	Engrs	14 Dec 16
IC-67869	SV Ramchandra	EME	14 Dec 16
IC-67877	A Trivedi	AC	14 Dec 16
IC-67878	SP Madhukar	Sigs	14 Dec 16
SC-00311	T Varghese	Arty	24 Oct 16
SC-00321	Krishna MTR	Inf	24 Oct 16
SC-00395	Harish CB	AOC	24 Oct 16
SC-00450	Ramesh Kumar	Sigs	24 Oct 16
SC-00456	Lakhwinder Singh	EME	13 Dec 16
SL-04754	Jasvir Singh	SL TOT	24 Oct 16

PERS NO	NAME	ARMS
IC-62170	Balvir Singh	EME
IC-64854	Anuradha Sharma	AEC

----- 26 OCT 2015 -----

PERS NO	NAME	ARMS
IC-63426	AMIT JYOTI LAHKAR	INF

----- 13 DEC 2016 -----

IC NO	NAME	ARMS	DATE OF PROMOTION
IC-63520	RAVINDER SINGH	AOC	13 Dec 2016
IC-63605	ADITYA MOHAN	AC	13 Dec 2016
IC-63668	ANKUR MITTAL	ENGRS	13 Dec 2016
IC-65869	MANDEEP SHERGILL	INF	08 Nov 2016
IC-67838	SIMRAN SINGH BHATI	AC	14 Dec 2016

IC-63604	AMIT KUMAR TYAGI	INF	13 Dec 2016
IC-63695	NM KHANZODE	EME	13 Dec 2016
IC-63703	DNM SINH	SIGS	13 Dec 2016
IC-64799	PAVAN KUMAR G	ENGRS	24 Oct 2016
IC-65883	MD CHANDRAN	EME	08 Nov 2016
IC-72791	DEENBANDHU	ENGRS	21 Apr 2017
IC-72800	SATISH KUMAR	SIGS	21 Apr 2017
IC-63658	ASHISH DOGRA	EME	13 DEC 2016
IC-65782	P Appala Satyaprasad	Inf	07 May 2017
IC-65909	Tekawade Atul Murti	AAD	06 May 2017
IC-65911	Amit Kanwar	Inf	06 May 2017
IC-65913	Brahma Sharimayum Hirendra Sharma	Inf	06 May 2017
IC-65914	Aditya Sai G N D	Arty	06 May 2017
IC-65915	Ashok Bhandari	Inf	06 May 2017
IC-65916	Dharmendra Jairam Singh	Engrs	06 May 2017
IC-65917	R Vigin Ravi	Inf	06 May 2017
IC-65918	Tharwani Haresh Bhagwandas	AAD	06 May 2017
IC-65920	Amandeep Singh Aulakh	Inf	06 May 2017
IC-65921	Karan Singh	Inf	06 May 2017
IC-65922	Prashant Kumar Deshmukh	Inf	06 May 2017
IC-65924	Yash Srivastava	Engrs	06 May 2017
IC-65926	N Madhu	Inf	06 May 2017
IC-65927	Surendra Singh Mehta	Arty	06 May 2017
IC-65928	Rajeev Tomar	Arty	06 May 2017
IC-65930	Vinay Sahajpal	ASC	06 May 2017
IC-65934	Kamal Rawat	Inf	06 May 2017
IC-65935	Amrinder Singh Bains	ASC	06 May 2017
IC-65936	Kunwar Singh Negi	Inf	06 May 2017
IC-65937	Kamaldeep Singh	EME	06 May 2017
IC-65941	Amitabh Dagar	ASC	06 May 2017
IC-65942	Dinesh Prakash Kadiyan	Inf	06 May 2017
IC-65948	Atul Mehta	Inf	06 May 2017
IC-65950	Jayant Joshi	EME	06 May 2017
IC-65951	Bhupender Singh	ASC	06 May 2017
IC-65952	Kumar Saurav	AC	06 May 2017
IC-65953	Sandeep Kumar	AOC	06 May 2017
IC-65954	Tarun Kanwar	ASC	06 May 2017
IC-65956	Vijay Chand	Inf	06 May 2017
IC-65957	Laishram Raju Singh	Inf	06 May 2017
IC-65959	Mohan V	Inf	06 May 2017
IC-65960	Karan Mehta	AC	06 May 2017
IC-65961	Harish Chander	Inf	06 May 2017
IC-65963	Vikash Kumar	Inf	06 May 2017
IC-65964	Tarnbir Singh Minhas	AC	06 May 2017
IC-65966	Pratap Kumar	Inf	06 May 2017
IC-65968	Harish Dhariwal	ASC	06 May 2017
IC-65971	Abhyankar Rohit Suresh	Engrs	06 May 2017

IC-65974	Jurrath Amez Shariff	Inf	06 May 2017
IC-65976	Kamal Bhatt	Inf	06 May 2017
IC-65977	Rajesh Madhwani	Inf	06 May 2017
IC-65985	Ishwant Singh	Inf	06 May 2017
IC-65986	GP Keshav	Inf	06 May 2017
IC-65987	Mayank Pundeer	Inf	06 May 2017
IC-65988	Deepak Bayala	AC	06 May 2017
IC-65989	Kumar Saurabh	Arty	06 May 2017
IC-65990	Arshpreet Singh	G/Mech	06 May 2017
IC-65991	Chankya Singh Khangarot	AC	06 May 2017
IC-65992	Abhishek Datta	Arty	06 May 2017
IC-65996	Aashish Malhotra	AOC	06 May 2017
IC-65997	Dubey Shashi Narendra	Sigs	06 May 2017
IC-65998	Bhupesh Pathania	EME	06 May 2017
IC-66000	Praveen Sharma	Arty	06 May 2017
IC-66001	Arvind Kapoor	Inf	06 May 2017
IC-66006	Viresh Pratap Singh	G/Mech	06 May 2017
IC-66007	Sameer Dahivelkar	Arty	06 May 2017
IC-66011	Ashok Kumar	Inf	06 May 2017
IC-66013	Chakradhar Sanyal	Sigs	06 May 2017
IC-66019	Nagender Singh Rathore	AC	06 May 2017

Pers No	NAME	ARM
IC-66033	GODBOLE SARIKA SATYENDRA	AEC

-----06 MAR 2017-----

IC No	Name	Arms	Date of Promotion
IC-66374	VIKAS KHARE	EME	19 Apr 2017
IC-66375	MANAK MADAN	SIGS	19 Apr 2017
IC-72786	SENTHIL ANAND	SIGS	21 Apr 2017
IC-72789	SANDEEP SINGH	ENGRS	21 Apr 2017
IC-72797	VINAY KUMAR SINGH	EME	21 Apr 2017
IC-72801	GIRI RATNA SINGH	SIGS	21 Apr 2017
IC-67829	BALJEET SINGH CHEEMA	EME	14 DEC 2016
IC-67364	ARJUN SAMPATH	ENGRS	15 JUN 2016

SC NO	NAME	ARMS	DATE OF PROMOTION
00260	KULDEEP SINGH	SIGS	24 OCT 2016

PERS NO	NAME	ARMS	DATE OF PROMOTION
SL-04393	DN RATH	SL (QM)	26 Apr 2010
SL-04986	SURENDRA KUMAR	SL (RO)	08 Jun 2015

WS NO.	NAME	ARMS
00741	SWETA CHAUHAN	AOC
00778	PREENA VERMA	ENGRS

----- 08 Mar 2017 -----

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

MAJ TO LT COL

SS NO	NAME	ARM	Date of Promotion
41791	NIKHIL KUMAR SINGH	ENGRS	21 Apr 2017

ARMY BRANCH

The President is pleased to make the following provisional promotions. These promotions will be subject to final outcome of the Civil Appeal No. 9367-9369/2011 titled Secretary, Ministry of Defence Vs Babita Punia & Others :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (WS)

MAJ TO LT COL

WS NO.	NAME	ARMS	Date of Promotion
00502	Mamta Singh	ASC	24 Oct 2016
00664	Km Manisha Tiwari	EME	24 Oct 2016
00704	Babita Yadav	AOC	24 Oct 2016
00720	Vineeta Joseph	INT	24 Oct 2016
00722	Aarchana Sharma	Engrs	24 Oct 2016

The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (WS)

MAJ TO LT COL

WS-No	NAME	ARM
01078	VANDANA NARAYANAN	EME
01120	PALLAVI VARMA	ENGRS

-----17 MAR 2017 -----

SHORT SERVICE COMMISSION

CAPT TO MAJ

SS No.	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Maj
44081	DIVYA A	AAD	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44083	THEJASSMITHA M	SIGS	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44088	ANKITA KANWAR	AVN	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44104	ANKITA MISHRA	ASC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44105	ARCHITA PANDIT	SIGS	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44107	DEEPTI RANA	ASC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44111	NAMRATA SINGH	ASC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44112	SURVE PRIYANKA PRAKASH	SIGS	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44115	SEEMA KUMARI	ASC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44116	POTSANGBAM ROSHNIRAMA	EME	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44128	TRIPATI	ASC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44130	NEHA PARMAR	INT	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17

44139	MEHAK IQBAL	AAD	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44141	SONIA RAJPUT	JAG	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44143	RUCHIKA RATHORE	AOC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44149	SUJATA SRIVASTAVA	INT	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44155	DEVKI HARBHAJANSINGH KASWAN	ASC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44156	SHINDE PRERNA DEEPAK	ASC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44159	JASJEET KAUR	ASC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44166	SUVALAKHMI BORGOHAIN	AOC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44175	POOJA PAL	ASC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44178	MANISHA YADAV	JAG	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44183	MANDEEP KAMBOJ	AAD	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44186	SALEN XAXA	JAG	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44197	SEEMA DALAL	INT	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44205	SALEHA HAQUE	EME	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44206	EKTA MEHTA	ASC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44208	VINITA SINGH	AEC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44215	TANIVA SAHA	ASC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44216	ANIKET GAUR	ASC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44217	SMITA PUSHKERNA	AOC	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44218	SWARNIKA CHAMOLA	JAG	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44220	RENU SINGH	JAG	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44223	SONALI TIWARI	JAG	18 Sep 10	SSCW-04(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44084	ADITYA NARAYAN SINGH	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44085	DEEPAK CHAND	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44086	SURJAN SINGH NEGI	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44087	VIVEK SRIVASTAVA	AC	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44090	JAGDEEP SINGH MANHAS	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44091	JAGDISH REDDY SANGU	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44092	MANU TANWAR	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44093	RAVI DHILLON	AOC	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44095	VIKAS SHARMA	JAG	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44096	MUNGEKAR DHIRAJ DILIP	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44098	SANTOSH KUMAR SINGH	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44099	ARAVINDHAN R	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44100	ARUN KUMAR SINGH	MECH	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44101	JUVVALA KRISHNA CHAITANYA	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44103	PANKAJ KUMAR	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44106	CHAUDHARI SHIVAJI SAMPATRAO	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44108	MANINDER SINGH	JAG	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44109	RAJA GURUNG	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44114	NEERAJ KUMAR YADAV	ENGRS	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44117	VAIBHAV BHATNAGAR	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44118	SONAM TOPDEN BHUTIA	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44119	VIKASH KUMAR	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44120	AJMAL SINGH	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44121	MUNINDRA HAZARIKA	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17

44122	ANGAD SINGH GILL	AC	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44123	MANISH KUMAR PANDEY	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44124	ABHINAV CHOUDHARY	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44125	SUNIL KUMAR JAKHAR	AOC	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44126	KARAN DAYA	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44127	WILLIAMJEET SINGH DHILLON	JAG	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44129	MOHINDER PAL SINGH	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44131	SUNIL KUMAR MISHRA	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44133	PRABHAT KUMAR	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44134	CHANDAN SINGH	AC	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44135	BIBIN THOMAS	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44136	SARAVJIT SINGH KHATRI	INT	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44137	SANDEEP KUMAR	AAD	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44138	RAJVEER SINGH CHAUHAN	AVN	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44140	SACHIN KUMAR	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44142	DHRUV KUMAR JAIN	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44144	PRASHANT MOUDGIL	ASC	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44145	KAMAL THAKUR	AAD	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44146	RAVINDER SINGH	ASC	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44148	YUVAVIR KADYAN	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44150	V KRISHNAN	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44151	JADUMANI SAHU	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44152	PRANAV PRASHAR	MECH	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44153	DMELLO FRANKLIN JOSEPH	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44154	ABY MATHEW	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44157	COUTINHO CARL ANDREW	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44158	SUMIT KATAL	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44160	PRASHANT GURUNG	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44162	RISHABH MAMGAIN	AC	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44163	PANKAJ SHARMA	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44164	ASHOK JANGID	AAD	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44165	VINOD KUMAR	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44167	CHAITHANYA V K	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44169	ARJUN SINGH KATOCH	JAG	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44171	PANKAJ KUMAR	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44172	RAVISHANKAR H N	ENGRS	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44173	ROHITASH SINGH	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44174	VIJAY SINGH	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44176	NARINDER SHARMA	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44177	LAKSHMI KANTH U R	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44179	VAIBHAV KUMAR	JAG	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44180	MANMOHAN SINGH RATHORE	AOC	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44182	RAVI VATS	ASC	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44185	S V CHANDRA SHEKHAR	MECH	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44188	ABHIMANYU SHARMA	EME	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44189	SUNNY VERMA	MECH	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17

44190	RAKESH SINHA	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44191	KARUNENDRA TIWARI	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44192	VIMAL MATHEW	SIGS	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44193	VIKAS KUMAR	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44194	ATUL GUPTA	JAG	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44195	JAY KANT SHUKLA	AAD	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44196	ANKIT SHARMA	EME	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44199	ARVIND R KAUSHIK	AOC	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44201	RAJIV BAWA	AC	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44202	VIJAYA C	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44203	SREECHAND C NAIR	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44204	SHOBHIT RANJAN	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44207	MANDEEP SINGH LEHIL	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44209	AJAY GUPTA	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44210	VIJAY KUMAR	ARTY	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44211	DEEPAK SANGWAN	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44212	GAURAVJIT SINGH	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44213	FAKKEERAPPA BK	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44214	ADITYA JAISWAL	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44221	RAJESH KUMAR YADAV	SIGS	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
44222	FAIZ ULLAH KHAN	INF	18 Sep 10	SSC-90(NT)	18 Apr 11	18 Apr 17
45427	PANKAJ RAWAL	MECH	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45428	DEVENDER SINGH	MECH	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45429	ZAMRUD WAJDI	AC	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45430	RAJAT KUMAR PANDEY	ARTY	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45431	NANDA KUMAR B	INF	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45432	VARUN UPADHYAY	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45434	MACKY JUNEJA	INT	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45436	ANUJ SHARMA	INF	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45438	MANISH KUMAR SINGH	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45441	RAVI SHUKLA	EME	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45442	HIMANSHU BALIYAN	ASC	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45444	UMASHANKAR NANJAPPA	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45446	MANJIT TAXAK	SIGS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45448	KAILASH KUMAR RAI	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45450	ANKIT DEORARI	AOC	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45451	SURAJ KUMAR RAGHUVANSHI	SIGS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45452	KARTHICK HARI	EME	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45454	MANISH DUBEY	SIGS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45456	SUMIT SHARMA	EME	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45457	ROHIT RATHEE	EME	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45458	PADAM SINGH	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45459	G VARUN	AAD	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45463	JAYESH NANDKUMAR DESAI	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45464	NITESH KUMAR	SIGS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45465	ABHISHEK PANDEY	AOC	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17

45466	HIMANSHU BALODHI	AAD	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45467	PRAVEEN KUMAR MISHRA	ARTY	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45469	REETU RAJ	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45470	A MAR JIT SINGH	SIGS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45472	SUDHIR KUMAR	SIGS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45474	KRISHNA KUMAR	MECH	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45476	B S PADMAKAR NAGIREDDY	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45482	PEEYOOSH PANDEY	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45483	SUJEET CHAUDHARY	EME	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45484	NISHANT MEHTA	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45487	RAJ KUMAR SINGH	INF	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45488	ANGADI RAJASHEKAR	INT	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45490	ANKUSH SHARMA	SIGS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45491	SINGH VIKRANT BHOOPSING	EME	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45493	SUDHANSHU RAI	EME	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45494	DHARMENDRA CHANDEL	SIGS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45495	MAHARSH SHAH	EME	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45496	AKSHAYA SETHI	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45497	SWIKAR BHARDWAJ	ARTY	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45498	WAMORKAR SARANG ANIL	SIGS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45504	SUBRATA DEBBARMA	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45505	SANDEEP SHARMA	SIGS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45506	DURGESH NANDKUMAR WANASKAR	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45507	PAWAN KUMAR	EME	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45510	RAHUL DHAMA	INF	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45512	MAHAVIR PRASAD JANGID	SIGS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45513	ANSHUMAN RAI	ASC	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45515	GAURAV TAK	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45516	TADPHALE OMKAR SATISH	INF	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45517	SUNIL KUMAR SUTHAR	EME	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45518	ATULVIKRAM SINGH	INF	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45519	BK JESSE JACKSON	EME	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45522	RITESH KUMAR MISHRA	ARTY	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45523	HITESH ISSAR	ASC	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45524	R VIGNESH	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45525	NITESH CHAUHAN	INF	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45527	TARIQ RAZA ANSARI	SIGS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45528	SURAJ JOSHI	AC	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45531	SHRESHTH JOSHI	AC	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45533	SANTOSH KUMAR	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45534	SNENDRA SINGH	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45536	DESHMUKH RAVIRAJ SAMBHAJIRAO	EME	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45538	SUNNY SINGH	EME	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45540	ANSHUL THAKUR	ENGRS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45541	JATIN KHURANA	SIGS	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17

45544	SIDHARTH MOHAN	EME	20 Mar 11	SSC-36(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45425	GAGANDEEP KAUR	SIGS	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45426	ELA VOHRA	SIGS	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45433	DEEPTI YADAV	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45435	VAISHALI	SIGS	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45437	SUCHIKA	ENGR	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45439	RUCHI BHADULA	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45440	SABNIS ARCHIS DEEPEN	ENGR	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45443	PATIL SHRUTI HANMANTRAO	ENGR	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45445	KANIKA SAINI	SIGS	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45447	DEEPTI BHATT	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45449	SHWETA GULERIA	SIGS	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45461	PARNIKA SANGWAN	SIGS	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45462	DIVIYA KOCHAR	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45468	SMITA KALWANIA	ENGR	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45471	PARVATHY RAJ	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45473	SIDDHI OJHA	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45475	RICHA YADAV	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45477	GAGANDEEP KAUR	SIGS	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45479	NAMRATA JODHA	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45480	TARUSHI MOHAN	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45481	PARUL ARORA	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45486	VERSHA JAIN	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45489	PRERNA CHHETRI	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45492	BANDANA SALATHIA	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45500	ANJU YADAV	ENGRS	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45501	PRIYANKA BANSOD	SIGS	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45502	KALPANA SARAN	SIGS	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45503	CHARU	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45508	MONIKA MALIK	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45509	NEHA CHAUHAN	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45511	RUPINDER KAUR KALKAT	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45514	PARAMVIR KAUR	SIGS	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45520	CINDY DEORI	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45521	NEHA SINGH	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45526	HARPREET KAUR BAHIA	SIGS	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45529	SHWETA PANDEY	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45532	NEHA AGARWAL	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45537	ANSHIKA MISRA	SIGS	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45539	SANGEETHA NATH	EME	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17
45543	NEHAIL SHAHNAWAZ	ENGR	20 Mar 11	SSCW-07(T)	20 Apr 11	20 Apr 17

PERMANENT COMMISSION

LT TO BE CAPT

IC No.	Name	Arm	Date of Subs Capt
73013	SMITA	AEC	16 Mar 2010
73014	SRIVASTAVA PARUL ANUPCHANDRA	AEC	16 Mar 2010
73488	NAVJOT KAUR	AEC	22 Sep 2011

IC No	Name	Arm/Services
78462	AKSHAY DORA	INF

----- 14 DEC 2015 -----

IC No	Name	Arm/Service
79461	RAHUL TR	ENGRS
79512	NIKHIL RAVI	INF

----- 14 JUN 2015 -----

IC No	Name	Arm/Service
80746	HEMANT CHAHER	EME
80747	MANGAL PANDEY	ARTY
80773	GAURAV SHUKLA	ASC
80778	SHUBHAM CHAUHAN	MECH
80787	JASDEEP SINGH	INT
80798	ISHAN RAWAT	ENGRS
80802	SIJO T JOSE	ARTY
80810	ANUJ KUMAR YADAV	INF
80819	GIRISH SINGH THAKUR	ARTY
80834	HARI PRATAP SINGH RATHORE	ARTY
80851	VARDAAN SAXENA	AAD
80880	DEVINDER SINGH	ENGRS
80897	ABHISHEK SINGH SARMAL	ENGRS

----- 15 JUN 2016 -----

SHORT SERVICE COMMISSION

LT TO BE QUASI SUBSTANTIVE CAPT

SS No.	Name	Arm	Date of grant of quasi-Subs rank of Capt
42867	SUMEER SINGH	INF	22 Mar 2017
42919	DINESH CHAHAL	INF	22 Mar 2017
42920	NEERAJ SHARMA	INF	22 Mar 2017
42966	BALHANS GUPTA	INF	22 Mar 2017
42978	SHAMINDER SINGH SIDHU	INF	22 Mar 2017

MP SHARMA
Dy Dir
MS-8C

ARMY BRANCH

No. 230, dated 19th September 2017—The President is pleased to make the following promotions :—

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING

To be Nb Sub DVRSPLEH

Firoj Ahmad sah	(14619643A now JC-774321Y)	01 Jun 2017
Dhoora Ram	(14619667K now JC-774313A)	01 Jun 2017

To be Nb Sub DVRMT

Mohammad Istiyaque	(14619670K now JC-774320W)	01 Jun 2017
Rana Ranjit Kumar	(14619668M now JC-774316N)	01 Jun 2017

Chhagana Ram Godara	(14619672P now JC-774324M)	01 Jun 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub DVRMT		
Susil Kirtonia	(14619719P now JC-774325P)	01 Jun 2017
Sahendra Singh	(14619425F now JC-774311P)	01 Jun 2017
Awadh Bihari Singh	(14619641P now JC-774314H)	01 Jun 2017
Rajesh T N	(14663876F now JC-774275P)	01 May 2017
Khema Ram	(14619671M now JC-774323K)	01 Jun 2017
Khushal Chand Khatri	(14619669P now JC-774319F)	01 Jun 2017
Bishan Singh Negi	(14619695W now JC-774322F)	01 Jun 2017
Chauhan Virender Singh Narayan S	(14619607P now JC-774312X)	01 Jun 2017
Viswakumar G	(14619292W now JC-774318Y)	01 Jun 2017
To be Nb Sub DVRSPLVEH		
Gulab Yadava	(14619427M now JC-774315L)	01 Jun 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub MTECAVN(AE)		
Patil Sachin Daji	(14657807P now JC-774263A)	01 May 2017
To be Nb Sub MTECAVN(AF)		
T Arul Murugan	(14649176H now JC-774264H)	09 May 2017/01 May 2017
To be Nb Sub MTECAVN(CS)		
Sujith S	(14661381W now JC-774265L)	01 May 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub MTECCV		
Kalyan Singh Jeena	(14631452X now JC-774115P)	11 May 2017/11 Mar 2017
To be Nb Sub MTECBV		
Ram Kumar Singh	(14637593H now JC-774204N)	16 May 2017/01 May 2017
Prem Prakash Jat	(14633502W now JC-774205W)	11 May 2017/01 May 2017
Sunil Singh	(14638016H now JC-774212M)	01 May 2017
Karthikeyan R	(14634174A now JC-774257M)	01 May 2017
To be Nb Sub MTECGUN		
Hem Singh	(14626275Y now JC-774243M)	01 May 2017
Bhagirath	(14635923X now JC-774253W)	13 May 2017/01 May 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub DVRSPLVEH		
Samir De	(14619387W now JC-774221N)	01 May 2017
Subhash Chandra Saini	(14619418L now JC-774278H)	01 May 2017
Rajendra Singh	(14619421L now JC-774279H)	01 May 2017
Shobh Nath Prajapati	(14619660A now JC-774272F)	01 May 2017
Anil Kumar	(14619661H now JC-774273K)	01 May 2017

Sri Niwas Yadav	(14619665Y now JC-774280A)	01 May 2017
Shaikh Babulal Farid	(14619589X now JC-774269F)	01 May 2017
Kuldeep Singh	(14619376K now JC-774219W)	01 May 2017
Rajbir	(14619380M now JC-774220L)	01 May 2017
To be Nb Sub DVRMT		
B Bhagirathi Dora	(14618618P now JC-774277A)	01 May 2017
Abdul Hai	(14619388Y now JC-774268Y)	01 May 2017
Manbar Singh Rawat	(14619694N now JC-774281H)	01 May 2017
Jasveer Katewa	(14619638P now JC-774274M)	01 May 2017
Rabindra Singh Negi	(14619689H now JC-774270W)	01 May 2017
Madhu P S	(14639484P now JC-774267W)	01 May 2017
Mulani Mahamdshariph Nabilal	(14651988P now JC-774276X)	01 May 2017
Jug Lal	(14619635F now JC-774271Y)	01 May 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub WLDR		
Nagilla Srinivasulu	(14620511Y now JC-774290K)	01 May 2017/01 Mar 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub ATOTECBV		
Viswanathan AG	(14620957N now JC-774304Y)	01 Jun 2017
Rakesh Kumar Ranjan	(14619329M now JC-774333N)	01 Jun 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub MTECGUN		
Atala Bihari Jethi	(14636935Y now JC-774306K)	01 Jun 2017
Mozammal Hossain	(14637287N now JC-774307M)	01 Jun 2017
Swapan Kumar Samanta	(14637900P now JC-774341M)	01 Jun 2017
To be Nb Sub MTECRDR		
Manish Kumar	(14651829X now JC-774344A)	02 Jun 2017/01 Jun 2017
Tapas Majumder	(14649012M now JC-774309X)	01 Jun 2017
Sanoj M S	(14650014K now JC-774310M)	01 Jun 2017
To be Nb Sub MTECCOMN		
Atul Prasad Ghosh	(14634498L now JC-773966P)	01 Jun 2017
Shambhu Kumar	(14634542K now JC-774337K)	01 Jun 2017
MD Soharab Khan	(14635503X now JC-774199N)	27 May 2017/02 Apr 2016
To be Nb Sub MTECNW		
Awdesh Kumar Gupta	(14658361X now JC-774340K)	01 Jun 2017
To be Nb Sub MTECGCE		
Rukam Singh	(14638042K now JC-774346L)	01 Jun 2017
Mahendra Singh	(14637764K now JC-774347N)	01 Jun 2017
To be Nb Sub MTECAV		
Sagarendra Kumar Gupta	(14639635H now JC-774345H)	01 Jun 2017

To be Nb Sub MTECBV

Pradeep Kumar	(14638412Y now JC-774235N)	01 Jun 2017
Rakesh Kumar	(14638349P now JC-774258P)	01 Jun 2017
Chandmal Chourdi	(14632045F now JC-774256K)	03 May 2017/22 Apr 2017

To be Nb Sub MTECELE

Nitul Baruah	(14642191P now JC-774308P)	01 Jun 2017
Gudaparthi Yerranna Naidu	(14642875L now JC-774343X)	01 Jun 2017
Purushottam Kumar Patwa	(14642836M now JC-774342P)	01 Jun 2017
Lalit Singh	(14642090F now JC-774200X)	03 May 2017/01 May 2017

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub WLDR

Sri Krishna KT Deka Raja	(14620581X now JC-774348W)	31 May 2017/01 Apr 2017
--------------------------	----------------------------	-------------------------

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub ARMTFD

Deepak Rawat	(14642126P now JC-774334W)	01 Jun 2017
--------------	----------------------------	-------------

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub MTECBV

Dayanand Lilhore	(14638375W now JC-774214X)	01 Jun 2017
Jitendra Singh Sengar	(14638479X now JC-774234L)	01 Jun 2017
C Krishna Murthy	(14638339L now JC-774255F)	01 Jun 2017
Anisur Rahaman	(14636954K now JC-774305F)	02 Jun 2017/01 Jun 2017

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub MTECAVNEL

Anandjee Dubey	(14657784Y now JC-774335Y)	01 Jun 2017
Ajeet Singh	(14660070W now JC-774336F)	01 Jun 2017

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub MTECBV

Balakrishna Ketu	(14638282F now JC-774217L)	05 Jun 2017/01 Jun 2017
Gyan Chandra Mishra	(14638458F now JC-774259X)	01 Jun 2017
Sathish D	(14638341H now JC-774233H)	19 Jun 2017/01 Jun 2017
Panwar Kanti Lal Uttam Rao	(14620052L now JC-774237Y)	09 Jun 2017/01 Jun 2017

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub DVRMT

Irappak Chinchani	(14619269H now JC-774317W)	01 Jun 2017
-------------------	----------------------------	-------------

* Gtd ante date seniority

ANURAG SHARMA
Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in